


राज० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-४१

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिविष्ट

भाग—4, छष्ठ (क)

(सामान्य परिविष्ट नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 जनवरी, 1989

पौष 16, 1910 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चीनी उद्योग अनुभाग-2

संख्या 1589एस० सी०/१८-६-७१-८८

लखनऊ, 6 जनवरी, 1989

### अधिसूचना

सा० प० नि०—२

उत्तर प्रदेश सरकारी समिति व्यविष्ट नियम, 1965 (उत्तर प्रदेश व्यविष्ट नियम संख्या 11 सन् 1966) की धा० 122 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 424/12-सी०-१-८७-७(13)-७६टी० सी०-०-दिनांक 31 मार्च, 1987 के अधीन यथा अपेक्षित प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, लखनऊ के कर्मचारियों की भर्ती उपलब्धियों और सेवा के निवधनों और शर्तों जिसके अन्तर्गत अनुशासनिक नियमहूँ भी हैं, विनियमावली को अनुमोदित करते हैं।

2—उपर्युक्त उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अप्रत्यरूप यह नियम देते हैं कि इस विनियमावली को गजट ये प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988

### अध्याय—एक

#### प्रारम्भिक

1—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988 कही जायेगी।

और प्रारम्भ

(2) यह संघ द्वारा नियुक्त प्रत्येक पर्याकालिक कर्मचारी पर सामान रूप से लाग होगी चाहे वे संघ के मुख्यालय पर या उसकी अपनी इकाई पर या किसी धंडक फैब्री पर जिसे लागे परिभाषित किया गया है, तैयार हों, चिदाय उनके—

(एक) जो थीडोमिक या अम विधियों और दिसी ऐसी विधि के अनुसरण में बनाये जाये नियमों या स्वायी आदेशों के अधीन हों;

62

Digitized by srujanika@gmail.com

(दो) जो राज्य सरकार ने या स्थानीय निकाय से या किसी अन्य संसदीय विभाग पर कार्रवात हों। इस श्रेणी के कर्मचारिवर्ग अपने पैतृक विभाग या की सेवा नियमावलियों के साथ-साथ अपनी प्रतिनियुक्ति के निवधनों द्वारा नियंत्रित होंगे।

3) यह गठन में प्रकाशित होने वाले नियमावलियों के साथ-साथ अपनी प्रतिनियुक्ति के निवधनों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।  
2—जब तक विषय या मानसिक रूप से

(क) "अधिनियम" का जात्पर्य उत्तर प्रदेश में

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का दावा—

(ग) "शिक्षा" का तात्पर्य संघ के प्रबन्ध निदेशक से है ;  
 "शिक्षा" का तात्पर्य ऐसी व्यक्ति से है जो शिक्षा की संविदा के अनुसारण  
 मिल या संघ में शिक्षा प्रशिक्षण ले रहा है ;

(घ) "प्राधिकारी" का अर्थ :

(१) जिन्हें का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो शिक्षा की मानवता का प्रबन्धन निदेशक ते हैं ;

(घ) "प्राधिकारी" का तात्पर्य क्या यह है ?

(३) "नैमित्तिक कर्मचारी" का वात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो अपने विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से है;

(च) "अध्यक्ष" का तात्पर्य संघ के अध्यक्ष से है।  
 (छ) "प्रवक्ता" का तात्पर्य संघ के अध्यक्ष से है।

(८) "प्रवन्ध समिति" का तात्पर्य- ऐसी प्रवन्ध समिति या प्रशासक से है जिसे अधिनियम की धारा २७ के अन्त में संघ के कार्यकलाप का प्रबन्ध सीपा गया हो ;

(ज) "निरस्तर भवा" का तात्पर्य मंथ या मिल के अधीन शब्दिकरण है सेवा भी सम्मिलित है जो कवल की प्रकृति एसी है।

(ब) "कर्मचारी" का जात्यय संघ/या मिल/या आसवनियों और संघ के अन्य वाणिजिक अधिविष्टानों में संघ द्वारा पूर्णकालिक कर्मचारी क रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या पर्यवेक्षक की हैशियत से पूर्णकालिक कर्मचारी अग्रणी के कर्मचारी इसमें नियोजित व्यक्ति भी है किन्तु निम्नलिखित अग्रणी के कर्मचारी इसमें नम्मलित नहीं हैं :—

(एक) नैमित्तिक कर्मचारी या संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ;  
 (दो) नरकारी सेवक और प्रतिनियुक्त परिस्थिति ;  
 (तीसरी) विषय-

(१०) एकारा संबंध प्रौद्योगिकीय व्यक्ति पर नियोजित अन्य व्यक्ति ;  
 (तीन) शिक्षुता या प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रभावित होना।

(तान) शिक्षुता या प्रशिक्षण की अवधि के दौरान पथास्थिति, शिक्षा और प्रशिक्षणार्थी,

(चार) अधिविधिता पर सेवानिवृत्ति की

(चार) अधिवृप्तिया पर सेवानिवृत्त और पन्नियोजित वर्षमें  
“मिल” का

“मिल” का तात्पर्य संघ के पर्यवेक्षण और तिथें पार्श्व में बनी इकाई से है।

(2) किसी कर्मचारी ने “—

(एक) (ग) निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(एक) (अ) किसी पुरुष कर्मचारी के सम्बन्ध में—उसकी पत्नी, पुत्र, सौतेला, पुत्रा आवश्यक हित पुत्री या सौतेली पुत्री जो उस पर आधिकारिक चाहे वे उसके साथ रहते हों या न रहते हों।

(व) किसी महिला कर्मचारी के सम्बन्ध में—जसका पति, पुत्र, सोतेला पु. , अविवाहित पुत्री, या सौतली पुत्री, जो उस पर आधित हों चाहे वे उसके साथ रहत हों या न रहते हों;

(दो) कर्मचारी का ऐसा कोई रक्त सम्बन्धी जो कर्मचारी पर पूणता अधिकृत किन्तु इसक अन्तर्गत, वंधतः पथक पत्नी या पति या पुत्र, सौतेला पुत्र अविवाहित पुर्वी या अविवाहित सौतेली पुर्वी जो अब पुरुष या महिला कर्मचारी पर अधिकृत नहीं है या विधि द्वारा जिनकी अभिरक्षा सेकर्मचारी वंचित है। सम्मिलित नहीं है।

(४) "संघ" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ है।

(इ) "प्रवन्ध निदेशक" का तात्पर्य संघ के प्रवन्ध निदेशक से है,

(द) "अनियमित कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो संघ, मिल, या अन्य वाणिजिक अधिष्ठान या आसवनियों में नियमित अधिष्ठान में नियोजित न हो किन्तु जो नियमित कार्य या विस्तार कार्य सरीखे पूर्ण रूप से अस्थायी प्रवृत्ति के कार्यों के लिये नियोजित किये गये हों।

(ए) "वेतन" का तात्पर्य उस धनराशि से हैं जो कर्मचारी नियन्त्रित रूप से आहरित करता है :—

(एक) पद के लिये स्वीकृत मूल वेतन ;

(दो) विषेष वेतन या वंशवितक वेतन ; और

(तीन) ऐसी अन्य परिलक्षियां जो वेतन के रूप में प्राधिकारी द्वारा वर्गीकृत की गयी हीं। इसमें महंगाई भत्ता, बोनस, यात्रा भत्ता या ऐसे अन्य भत्ते समिलित नहीं हैं ;

(त) "नियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भूकारी समिति नियमावली, 1968 से है ;

(ध) "पगार" का तात्पर्य उन सभी परिलक्षियों से हैं जो अपने सेवायोजन की शर्तों और नियंत्रणों के अनुसार काम पर या एट्रॉटी पर रहते हैं कर्मचारी ने अर्जित किया है और जिनका भुगतान उसे किया गया हो या नकद भुगतान किये जाने यार्थ हो और इसके अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किशोरा भत्ता, अन्तरिम सहायता भी समिलित है, किन्तु उसमें बोनस, कर्मीशन और अन्य कोई भत्ते समिलित नहीं हैं।

(८) "चयन समिति" का तात्पर्य विनियम 13 के अधीन गठित चयन समिति से है,

(ध) "अधिवर्पिता" का तात्पर्य किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु प्राप्त करने से है जैसी कि विनियम 21 में विविदिष्ट है ;

(न) "प्रशिक्षणार्थी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे भर्ती के समय उसकी नियक्ति के अन्दर विनिर्दिष्ट अवधि के लिये या एक नियमित अनुयायी अदेश द्वारा बदायी गई अवधि के लिये प्रशिक्षण पर रखा गया हो।

(९) "वर्द्ध" का तात्पर्य पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले और आगामी 30 जून को समाप्त होने वाले सहकरिता वर्ष से है।

#### अध्याय—दो

##### भर्ती की सामान्य शर्तें

3—(१) नियुक्ति, नियंत्रण और अनुशासन के प्रयोजन के लिये संघ के अधीन पदों का वर्गीकरण इस विनियमावली में, संलग्न अनुसूची के अनुसार किया जायगा।

पदों का वर्गीकरण

(२) प्राधिकारी अदेश द्वारा, उप-विनियम (१) में निर्दिष्ट अनुसूची में समय-समय पर संकोषित कर सकते हैं।

राष्ट्रीयता

4—संघ के अधीन सर्वों में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़्रीकी देश-केन्या, यांगांडा और यनाइटेड रिपब्लिक आफ़्रिका-तांगानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रज्ञ किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पालता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

इपरन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना भाखा, उत्तर प्रदेश से पालता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पालता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी की एक वर्ष की अवधि के अगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

**टिप्पणी:-**—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न हो जारी किया गया हो और उसे देने से इन्कार किया गया हो, किरी शरीर साधारकार में समिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय और इसके लिये नियत समृद्धीतर संघ को उपलब्ध करा दिया जाय।

आयु

5—(1) संघ के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिये। प्रत्येक संघर्ग या पंद के मामले में प्राधिकारी के निर्देशों, यदि कोई हो। अधीन समय-समय पर नियुक्त प्राधिकारी उच्चतर आयु सीमा निर्धारित करेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये एसोशिएशनों को उच्चतर आयु सीमा नियुक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े बर्ग अभ्यर्थियों के मामले में अधिकार आयु में छठे दे सकते हैं।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले किसी पद पर अध्यया पाठ अमंचारी द्वारा द्वायेदान करने के मामले में उच्चतर आयु सीमा नियुक्ति कर सकते हैं।

(4) किसी व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अपनी पायु का प्रमाण नियुक्ति प्राधिकारी को देना चाहिया।

(5) उपविनियम (4) के अधीन आयु का प्रमाण, हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र होगा। जहाँ विसी व्यक्ति ने कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जहाँ उसके बजे के बाहर ऐसे कारणों से यह संभव न हो कि वह ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हों ऐसे कारण प्रस्तुत करने की ओर ऐसा की जायगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक मानें।

(6) अमंचारी के जन्म का जो दिनांक उसके हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित है या जहाँ कर्मचारी ने कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वहाँ ऐसा में प्रदेश के समय उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित यथास्थिति जन्म का दिनांक या आयु उसका सही जन्म का दिनांक या आयु समस्त जायगा और ऐसे दिनांक या आयु में सुधारके लिये किसी भी परिस्थिति में कोई द्वायेदान-पत्र या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायगा।

महानाये

चरित्र

6—प्राधिकारी द्वारा भर्ती की प्रक्रिया और लोग के संबंध में दिये गये निदेशों के अधीन प्रदान निदेशक विसी विशिष्ट पद के लिये अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य अर्हताये और जहाँ आवश्यक हो अधिकारी अहताये और विनिर्दिष्ट अनुभव निर्धारित करेगा।

7—सेवा में भीड़ी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह संघ की घोषामें सेवायोजन के लिये गंभी प्रकार से उपयुक्त हो भक्ति। उसकी सेवाये तथा तथा नियमित नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार उसके चरित्र का स्तरापन न कर दिया जाय।

**टिप्पणी:-**—राज्य सरकार या संघ सरकार द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रण में किसी नियम या नियाय द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी नियमित निकाय द्वारा प्रस्तुत कोई व्यक्ति पात्र न होगा।

गारंटीक दद्-  
युक्तता

8—किसी भी अभ्यर्थी को संघ की सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पूलन करने में वाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनिवार्य से अनुमोदित करने के पूर्व उससे ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की घोषका की जायगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।

वैवाहिक प्रा-  
स्थिति

9—संघ के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा कोई अभ्यर्थी पत्र न होगा जिसके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हों या जिसने किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह किया है जिसके पहले ही मे कोई पत्नी या पति जीवित हों।

पदों का धार-  
ण

10—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के, यदि कोई हो, अभ्यर्थियों के लिये पदों पर आरक्षण द्वारा राज्य सरकार समय-समय पर जारी किये गये प्रादेशों के अनुसार किया जायगा।

## अध्याय—तीन

## भर्ती और नियुक्ति

11—इस सम्बूध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पदों का सूचन करने की शिक्षित प्राधिकारी में विहित होगी। प्राधिकारी समय-समय पर संघ की सेवा में प्रत्येक समूह के पदों की संख्या अवधारित करेगा।

पदों का सूचन

12—(1) संघ के अधीन समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर नियुक्तियाँ निम्न प्रकार से की जायेगी—

भर्ती का स्रोत

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्रबन्ध नियंत्रक समय-समय पर अवधारित करें, वाम चारियों में से पदोन्नति द्वारा;

(ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा;

(घ) किसी अन्य स्रोत से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।

(2) यमूह "क" के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

चयन समिति

13—(1) संघ के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अध्यर्थियों की भर्ती के लिये एक चयन समिति होगी।

(2) समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर अध्यर्थियों के चयन के लिये समिति में निम्न-सिखित सदस्य होंगे—

(क) प्रबन्ध नियंत्रक— अध्यक्ष

(ख) प्राधिकारी द्वारा— सदस्य

नाम निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ

(3) यमूह "घ" के पदों के लिए अध्यर्थियों का चयन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे प्रबन्ध नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया जायगा।

14—इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ में पदों पर चयन के लिये प्राधिकारी द्वारा अन्य-समय पर स्रोत और प्रक्रिया अवधारित की जायगी। विनियम 13 के अधीन सम्यक् रूप से गठित चयन समिति प्राधिकारी द्वारा अवधारित स्रोत और प्रक्रिया से यमूह अध्यर्थियों का चयन करेगी और चयनित अध्यर्थियों के नाम उनकी योग्यता क्रम में रखकर एक नाम सूची (पैनल) बनायेंगी और अपनी संस्तुतियों के गाय उसे नियुक्ति प्राधिकारी को देंगे। नियुक्ति प्राधिकारी सूची का अनुमोदन करेगा और उसे नोटिस बोर्ड पर लगादेगा। इस रीति से तैयार की गई कोई नाम सूची (पैनल) अपने अनुमोदन के दिनांक से एक वर्ष के लिये अस्तित्व में रहेगी।

चयन

15—इस विनियमावली के अधीन या अन्यथा उपबन्धक के सिवाय कर्मचारी की सेवा उसी दिन से प्रारम्भ हुई समझी जायगी, यदि वह प्रबन्धक नियंत्रक द्वारा बताये गये स्थान और समय पर पूर्ण होने में कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्रिपोर्ट करें और उस पद का कार्यभार ग्रहण करें जिस पर उसकी नियुक्ति की गयी हो। अध्यर्थी द्वारा अपने में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में उसकी सेवा अगले दिन से प्रारम्भ होगी।

सेवा का प्रारम्भ

परन्तु चयन किये गये अध्यर्थियों की ज्येष्ठता चयन समिति द्वारा अवधारित योग्यता क्रम के अधीन पर होगी और ऐवा का प्रारम्भ इस ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।

✓ 16—(1) प्रत्येक कर्मचारी आरम्भ में ऐसी अवधि के लिये परियोजना पर नियुक्त किया जायगा जैसी नियुक्ति प्राधिकारी उसके नियुक्ति-पद में विनियोजित करें।

परिवीक्षा

✓ (2) परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विसी कर्मचारी को विना किसी नोटिस के सेवा से अभियुक्त किया जा सकता है।

(3) नियुक्ति-पद में विनियोजित परिवीक्षा अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है।

✓ 17—(1) इसी पद पर सीधे भर्ती की गया भोई अंगचारी परिवीक्षा द्वारा दीर्घ समय के समय, नियुक्ति प्राधिकारी के शादीशों के अधीन संघ की सेवा से रोका गया रुक्ति किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा-नियुक्त करना

(2) उच्च अधिकारी द्वारा नियमाग्राही कोई कर्मचारी जो परिवीक्षा पर हो, यथास्थिति, परिवीक्षण आवधि या बड़ी गयी अविक्षणा अवधि के द्वारा नियुक्ति किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कृपते वास्तविक मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(3) समूह "क" और "ख" के पदों के संबंध में इस विनियम के अन्तर्गत आदेश प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होंगे।

## स्वायीकरण

योग्यता का समाप्त होना

18—परिवीक्षणीय व्यक्तिको, यथास्थिति परिवीक्षण अवधि या बड़ी गयी परिवीक्षणीय की समाप्ति पर विनियोगित अभिव्यक्ति लिखित आदेश द्वारा स्थोरी किया जा सकता है यदि उसका कार्य और आवरण संतोषजनक पाया जाय, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दो जाय और नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायीकरण के लिये उपयुक्त समझें।

19—(1) विनियम 12 के खण्ड (ग) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए कोई कर्मचारी अपने हारा निष्पादित व्यापक में अनुबद्ध अवधि में न तो अपनी सेवायें छोड़े गयी हो या जहाँ सेवा करना बन्द करेगा। उन मामलों में जहाँ चंचे-पत्र में अनुबद्ध अवधि समाप्त हो गयी हो या जहाँ कोई ऐसा व्यापक निष्पादित न किया गया हो, वहाँ कर्मचारी अपनी सेवा को छोड़ने या सेवा करना बन्द करने के अभिप्राय की तीन माह की लिखित नोटिस देगा। नोटिस नियुक्ति करने की दृष्टिकोण से उपवन्धों का अद्विक्षण करने की दृष्टिकोण से उपवन्धों के लिये भागी होगा।

परन्तु विवृति प्राधिकारी अपने विवेक से ऐसे प्रतिकरक का भूगतान अभिव्यक्त कर सकते हैं।

(2) (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी स्थायी कर्मचारी की सेवायें तीन माह की नोटिस द्वारा उसके स्थान पर बेतन देकर समाप्त कर सकते हैं।

(ख) योग्यता कर्मचारियों की सेवायें किसी भी समय एक माह की नोटिस वा उसके स्थान पर बेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

(3) उस विनियम (2) में दी गयी किसी बात का कोई प्रभाव प्रबन्ध निदेशक वे इस अधिकार पर नहीं पड़ेगा फिर वह किसी कर्मचारी की सेवा दिना "किसी नोटिस या उसके स्थान पर बेतन के समाप्त कर सकता है" यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह गत्योपति प्राधिकारी की सेवा में वने रहने के लिये कर्मचारी स्थायी हो गया या नियुक्ति गया है।

(4) (क) जिस कर्मचारी के विवृद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो वह नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बाबत अपनी सेवा न तो छोड़े गये न तेवा करना बन्द करेगा और ऐसे कर्मचारी द्वारा दिया गया कोई नोटिस या व्यापक तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश परित न कर दिया जाय।

(ख) किसी कर्मचारी के विवृद्ध अनुशासनिक कार्यवाही इस उप विनियम के प्रयोगन के लिये लम्बित समझी जायगी यदि वह इस उप विनियमावली के विनियम 51 (3) के अधीन निलम्बित किया गया हो या उसे कारण बताओ नोटिस जारी की गयी हो कि अनुशासनिक कार्यवाही उसके विवृद्ध संस्थित क्षयों न की जाय या विनियम 51 के अधीन उसको कोई आरोप-पत्र (चार्ज शीट) जारी न किया गया हो और वह तब तक लम्बित समझा जायगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश परित न कर दिया जाय।

स्पष्टीकरण 1—इस विनियम में प्रयुक्त शब्द "माह" की गणना अंग्रेजी कलेण्डर के अनुसार की जायगी और उसका प्रारम्भ उस दिनांक के अगले दिन से होगा जिस दिनांक को, यथास्थिति, कर्मचारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस दी गयी हो।

स्पष्टीकरण 2—उप विनियम (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा दी गयी नोटिस तभी उचित समझी जायगी जब वह नोटिस की अवधि में छुट्टी पर रहे और कोई कर्मचारों उपायित किसी छुट्टी को, जिसका उसने उपभोग न किया हो, ऐसी नोटिस की अवधि के प्रति मुक्त राह रखने का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी उस कर्मचारी को अनुसूत करने के लिये स्वतंत्र है जो दिना किसी नोटिस के द्वारा अवधि की नोटिस देकर व्यापक पत्र देता है।

20—कर्मचारी का व्यापक तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकारन कर दिया जाय। नियुक्ति प्राधिकारी व्यापक पत्र को अस्वीकार कर सकता है यदि—

(क) कर्मचारी किसी विनियोगित अवधि के लिये जो कि अभी समाप्त न हुई हो, संघ की सेवा करने के लिये बाध्य हो; या

(क) कर्मचारी संघ को किसी धनराशि का देनदार है था उसे कोई अन्य दायित्व परा करना है तो उस समय तक जब तक कि उक्त धनराशि अदा न कर दी जाय या दायित्व पूरा न कर दिया जाय ; या

(ग) अन्य पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे ।

21—(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करलेने पर सेवा-निवृत्त होगा :

परन्तु किसी कोष्ठर साह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिविष्ट की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारों उस साह के अंतिम दिन को सेवा निवृत्त होगा ।

अधिविष्टा और  
सेवा निवृत्ति

(2) पदि संघ के हित में ऐसा करना उचित हो कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात किसी कर्मचारी को नियोग अवधि के लिये रखिदा पर सेवायोजित किया जाय तो ऐसा करने की प्रबन्ध नियम की यह गति इस विनियम की किसी बात से प्रभावित हुई नहीं कमज़ो जायगी ।

### अध्याय—चार

सेवा अनिवार्य, पदोन्नति और प्रतिबन्ध

22—सेवा का अभिलेख ऐसे प्राह्ण ने रखा जायगा और उसमें ऐसी सूचनाएं होंगी जैसा कि प्रबन्ध नियमक विद्युत करें ।

सेवा अभिलेख

✓23—पदोन्नति : की नीति और संघ के कर्मचारियों की पदोन्नति ये भरे जाने वाले पदों की संख्या प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायगी ।

पदोन्नति

24—(1) एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति किया जाय कर्मचारी एक वर्ष के भीतर किसी भी तरफ विवाहान्वयन के प्रतिवर्तित किया जा सकता है ।

प्रतिवर्तित

(2) उच्च परायन विवाह का ते नियुक्त किया कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति किसी विनियोजित अवधि के दिनों परिवर्तित हो गयी हो, तो उस प्रकार स्वरूप उसे ते कार्य करने हुये उसे किसी भी समय विवाहान्वयन के प्रतिवर्तित किया जा सकता है ।

### अध्याय—पाँच

वेतन, भर्ते और अन्य सेवा शर्तें

25—(1) सीधे भर्ती किया जाय कोई कर्मचारी पद पर लागू वेतन और भर्ते पायेगा उसन्तु सुपात्र होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है ।

भर्ती के समय  
वेतन

✓(2) समय-समय पर या संयोगित फाइनेंशियल हैंड बुक, खण्ड 2, भाग दो में चार में दिये गए सुरुंगत सरकारी नियमों को दृष्टि में रखते हुये प्राधिकारी समय-समय पर अवधियां परोन्नति या सामान समान्तर्य वेतनमात्र में नियुक्ति के मामले में वेतन निवारण की रूपी अवधारित करेगा ।

प्रतिनियुक्ति पर  
और संविदा पर  
वेतन निवारण

26—(1) सरकारी सेवा या किसी अन्य सेवा से प्रतिनियोजित पर नियुक्त कर्मचारी के मामले में प्रतिनियुक्ति की नियन्त्रण और शर्तें वह होंगी जैसी संवेद और उसके मूल विभाग के नियोजक के बीच तय की जायें ।

वेतन कब प्रोट्रू  
भूत होगा और देय  
होगा

(2) संविदा पर नियुक्त किये गये किसी कर्मचारी के मामले में, वेतन और सेवा शर्तों का नियांरण संवेद और कर्मचारी के बीच संविदा की शर्तों के अनुसार होगा ।

वेतन कब  
शर्ते कब देय  
होंगे

27—इस विनियोगावली के उपलब्धों के अधीन रहते हुए वेतन और भर्ते किसी कर्मचारी की सेवा के प्रारम्भ से प्रोट्रू भूत होगा और प्रत्येक मास के दौरान की गयी सेवा के संबंध में उक्त मास के अंतिम कार्य दिवस के अपराह्न में देय होगा ।

वेतन और भर्ते  
कब समाप्त हो  
जायेंगे

28—ऐसे किसी कर्मचारी को किसी मास के भाग के लिये वेतन और भर्ते प्रोट्रू भूत नहीं होंगे जो छुट्टी की स्वीकृति के बिना अनुपस्थित पाया जाता है या जो उस मास के दौरान सम्पूर्ण सूचना के बिना अदा नहीं होता है और सेवा करना बन्द कर देता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी छुट्टी स्वीकृत न की जाय या सूचना का अधिदारण न किया जाय ।

29—किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाने पर वेतन और भर्ते प्रोट्रू भूत नहीं होंगे। सेवा से प्रदूषित किसी कर्मचारी के मामले में वेतन और भर्ते उसकी पदच्युति के दिनांक से समाप्त हो जायेंगे। ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय, वेतन और भर्ते उसकी मृत्यु के दिनांक से अनुवर्ती दिनांक से समाप्त हो जायेंगे ।

स्थानान्तरण के  
दोरान वेतन

30.—जब किसी कर्मचारी को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय तब वह पुराने पद का अपना भार सौंपने, और नये पद का भार ग्रहण करने के दिनांक के दीच ड्यटी के किसी अन्तराल के दोरान इस परियोजना के लिये सामान्य अनुभूति समय के अधीन रहते हुए पुराने पद का वेतन और भत्ता पायेगा।

वार्षिक वेतन-  
वृद्धि

31.—(1) कोई कर्मचारी उस पद के, जिस पर उसकी नियुक्ति की गयी हो वेतन-मान में वार्षिक वेतन-वृद्धि का हक्कदार होगा, वशर्ते उसकी वेतन वृद्धि किसी अनुशासनिक कार्यवाही के कल स्वरूप या खराच काम करने के कारण या दक्षतारोक पारकरने के प्रत्रम पर रोक न ली गयी हो।

(2) शुगर बेज बोर्ड या किसी अन्य बेज बोर्ड के वेतनमानों द्वारा नियन्त्रित कर्मचारियों के सिवाय समरत कर्मचारियों को उनकी वेतन-वृद्धि किसी कलेक्टर मास के प्रथम दिनांक से भिन्न दिनांक को देख हो जाय, उस भास के जिसमें वेतन वृद्धि देय हो, प्रथम दिनांक को वेतन वृद्धियाँ दी जायेगी।

(3) ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में, जो असाधारण छुट्टी, अनुपरिषत रहा हो, वेतनवृद्धि का दिनांक तदनुसार वदल जायेगा; और ऐसी छुट्टी की अवधि को वेतनवृद्धि के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जायेगा।

(4) ऐसा कोई कर्मचारी जो किसी उच्चतर पद पर उच्चतर वेतनमान में स्थानान्तर स्पष्ट से फार्मरत हो, उसको द्वारा उच्चतर पद या उच्चतर समय वेतनमान में कार्य करने की अवधि की उसे निम्नतर पद या समय वेतनमान में प्रतिवर्तित होने पर, वेतनवृद्धि के लिये गणना की जायेगी।

32.—अति उत्तम कार्य के लिये पुर रक्त करने और निरस्तर अति उत्तम कार्य करने के लिये उसको प्रोत्याहित करने के उद्देश्य में, प्रबन्ध निदेशक किसी कर्मचारी को उसके समय वेतनमान में समय पूर्व या अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ रखी दृष्टि कर सकता है।

समयपूर्व वेतन  
वृद्धि

33.—शुगर बेज बोर्ड या अन्य बेज बोर्डों द्वारा विहित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी ऐसे महंगाई और अन्य भूतों के हकदार होंगे जैसा ऐसे कर्मचारियों को उस बेजबोर्ड के अनुसार अनुमन्य हो।

स्थानान्तरण

34.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश में किसी सहकारी चीनी मिल, आस्वनी ईकाई या संघ के नियन्त्रण धीन किसी अन्य अधिष्ठान में या भारत के विसी अन्य स्थान में कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करने और इन्हें किसी एक सहकारी चीनी मिल, आस्वनी ईकाई या अधिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की भी शक्ति होगी।

(2) जब किसी कर्मचारी बारथानान्तरण या अन्य विधि विसी एक पद से विसी अन्य पद पर किया जाय जिसमें सुखायालय का परिवर्तन भी अन्तर्गत हो, तब वह अन्यान्तरण पर कार्य ग्रहण करने का समय और रथानान्तरण पर देय ऐसे भूतों का हकदार होगा जैसा प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस विनियमावली के अधीन अधिकारित किया जाय।

### अध्याय-छ:

#### आचरण और अनुशासन

35.—जब तक कि नियुक्ति आदेश में स्पष्टतः अन्यथा उपबन्धित न हो—

(क) प्रत्येक पण्णालिक कर्मचारी संघ या सम्बद्ध मिल, आस्वनी ईकाई या संघ के अन्यान्यालियक अधिष्ठान के अधिकार में होगा और वह संघ, मिल, आस्वनी ईकाई या संघ के अन्यान्यालियक अधिष्ठान की सेवा ऐसी क्षमता, ऐसे घट्टों के दोरान और ऐसे स्थान पर करेगा जैसा कि उसे समय-समय पर निवेशित किया जाय।

(ख) प्रत्येक कर्मचारी अधिनियम, नियमावलियों, विनियमावलियों और उपदिधियों के उपबन्धों और प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करेगा।

(ग) प्रत्येक कर्मचारी इस विनियमावली का अनुसरण और पालन करेगा और समस्त आदेशों और निदेशों को जो, ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता, अधीक्षण या नियन्त्रण के अधीन वह अन्य समय-रखा जाय, उसको दिये जायें, मानेगा;

(घ) कोई कर्मचारी संघालित के कारबार के घोड़ों को और गोपनीय प्रकार की कारबार रायधी रूपजाओ, जो उसके नियोजन के दोरान उसके कठ्ठे या जानकारी में आयी हों या उसके द्वारा संप्रहीत की गयी हों विसी व्यवित्र को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रकाट नहीं करेगा;

परन्तु अपने ज्येष्ठ अधिकारी की अनुज्ञा से, वह केवल ऐसी सूचना संप्रेषित कर सकता है जैसी विवादों के निस्तारण या जांच, निरीक्षण, अन्वेषण या लेखा परीक्षा के सचालन के लिये किसी प्रोधिकारी द्वारा आवश्यक हों या जहाँ ऐसी सूचना किसी विधि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आपेक्षा की जाय।

36—(1) कर्मचारी संबंधित गहकारी समिति के हित का संबंधन करने के लिये संघ, मिल, आसदनी इकाई और संघ के अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान की सेवा करेगा।

(2) किसी क्षेत्र में मादक पेयों या आपातधियों से संबंधित तदनुभव प्रवृत्त किसी विधि के उपदन्धों के अधीन रहते हुए, संघ, मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कोई कर्मचारी—

(क) इयूटी को दौरान ऐसे मादक पेयों या आपातधियों के प्रभाव में नहीं रहेगा; या

(ख) मादकता या नशे की दण्डा में किसी तार्व जनिक स्थान पर नहीं जाएगा; या

(ग) आदतन ऐसे देयों या आपातधियों का उपयोग नहीं करेगा।

(3) संघ, मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कोई कर्मचारी—

(क) नंघ, मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान के परिसार में विशुद्ध खेल या प्रभाव व्यवहार, दृढ़त या पृष्ठ में तल्लीन नहीं होगा और न ऐसा कांडा व्यक्ति करेगा जिसम समिति के कारदार में वाधा पहुंचे या वह अस्तव्यस्त हो जाय।

(ख) संघ, मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान की संघ या मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कार्य करने वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति को जानवृक्ष करने वाली क्षति पहुंचायेगा और न क्षति पहुंचाने वाले योग्यता करेगा, या

(ग) वदाचार, वर्तन्धों को लोप या भंग के बार्य के लिये किसी कर्मचारी को न तो दुष्प्रेरित करेगा और न प्राप्ति हात करेगा, या

(घ) अपने प्रभार या देव-रेख में संघ, मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान से प्राप्त करणों या आप्रिमों का दुष्प्रयोग नहीं करेगा।

(4) संघ, मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कोई कर्मचारी किसी राजनीतिक प्रदर्शन में न तो भाग लेगा और न स्वयं उससे सहयोग करेगा और न प्रबन्ध करेंटी या गहकारी समिति या मिल के किसी अन्य कार्यालय के किसी निवाचन में पक्ष समर्थन करेगा और न अन्यथा अपने प्रभाव का उपयोग करेगा।

(5) कोई कर्मचारी संघ, मिल, आसदनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान के जिसका वह कर्मचारी है, कार्यकालीन के संबंध में प्रबन्ध निदेशक या संबंधित मिल के मूल्यकार्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना, प्रेस को न तो कोई बयान देगा, न प्रेस या मैगजीन को कोई लेख देगा और न रेडियो पर कोई वार्ता देगा।

37—कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित पूर्ण अनुज्ञा के बिना कोई बाहरी नियोजन या लाभ का पद न तो स्वीकार करेगा न उसके लिये या चन, करेगा और न उसकी तजाश करेगा।

38—कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, अग्रहर अध्ययन के लिए किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं लेगा। इस प्रकार अपेक्षित अनुज्ञा उपयुक्त गामलों में और केवल विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ही दी जायगी जब कि नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाय कि कर्मचारी को ऐसी अनुज्ञा उसके कर्तव्यों के दश निर्देशन के प्रतिकूल नहीं होगी।

39—कोई कर्मचारी किसी अधिकारी से या ऐसे किसी अन्य व्यवित से जिसका संबंधित मिल या संघ से किसी प्रकार का व्यवहार हो दिसी उपहार या अनुतोष के लिए न तो या चना देगा और न ही उथे स्वीकार करेगा।

40—कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना व्यवित रूप से अपने लिए या अभिकर्ता के रूप में दूसरों के लिए कहीं भी आधिक लाभ का कोई अन्य कार्य नहीं करेगा।


नियोजन वर्तन्ध  
निवाचन

अप्रतर अध्ययन  
के लिये अनुज्ञा

उपहार या अनु-  
तोष को स्वीकार  
करने पर रोक

आधिक लाभों  
के लिये कार्यों का  
प्रतिषेध

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जनवरी, 1989



इयूटी से  
अनुपस्थित रहना

4

41—(1) कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कियी अन्य प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना अनी इयूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी जो अपने नियंत्रण से परे को परिस्थितियों के विवाह, जिसके लिये उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है या अपनी छुट्टी के उपरान्त रुकड़ा है; तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक रुकने की अवधि के लिये बतना और भले पाने का हफदार नहीं होगा और अपतरे उस पर ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी जैसी परिस्थितियों के अधीन उस पर चारोंपाँत की जाय।

मुख्यालय  
ठाड़ने के लिये  
अनुज्ञा।

समय पालन

परिसम्पत्तियों  
को प्रकट करना

बोली बोलने  
और नीलामी  
के लिये प्रतिषेध

उधार संवयवाहार  
पर रोक

द्विव विवाह पर  
निवन्धन  
नैतिक पतन  
संबंधी कार्यों में  
शान्तंप्रस्तुत होना।

अन्यत्र नियुक्ति  
एवं लिये आवदन  
एवं

42—कोई कर्मचारी उस अधिकारी संज्ञिके अधीक्षण और नियंत्रण में वह कार्य करता है, स्वीकृति प्राप्त किये बिना, इयूटी पर होने के सिवाय, अनी तैनाती के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं होगा।

43—प्रत्येक कर्मचारी समय से अनी इयूटी पर अनुपस्थित होगा और जब तक उन्हें छूट न जायगा।

44—प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक एकान्तर वर्ष में गहरारी या अन्य समिति परा में प्रबन्ध निवेशन को लिखित रूप में अपनी परिधानियों ने प्रकट करेगा।

45—कोई कर्मचारी प्रबन्ध निवेशन के पूर्व अनुज्ञा के बिना संघ, मिल, आसवनी इकाई या अपरोक्ष रूप से बोली नहीं बोलेगा।

46—कोई कर्मचारी अधिनियम, नियमों या संवैधित समिति की उपविधियों के अधीन अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय, अनी समिति या किसी अन्य समिति से, किसी उधार संवयवाहार में न तो शामिल होगा और न उसे करेगा।

47—ऐसा कोई कर्मचारी नियूटी पर होने या नियता परि जीवित हो, दूसरा विवाह नहीं करेगा।

48—ऐसा योई कर्मचारी जो अन्यराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक पतन संबंधी किसी आपराधिक आरोप के लिये पिंडशेव किया गया हो, पदचयुक्ति का मांगी होगा।

इयूटीकरण:- "दोषतिद्धि" का तत्त्व कारणास, जुमना या दोनों की सजा से है।

49—(1) कोई कर्मचारी उचित माध्यम के सिवाय, अन्य नियुक्ति के लिये कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

(2) वाहननियोजन के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) कोई कर्मचारी अधिकारात्ववृत्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने के लिये कोई आवेदन-पत्र संबंधित प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत नहीं करेगा, जब लक किवह यथास्थिति संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिकारात्व द्वारा समिति न हो, या उसे ऐसी अधिकारात्ववृत्ति या छात्रवृत्ति, लने के लिये प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञान दी जाय।

### अध्याय सात

#### शास्ति और अनुशासनिक प्रक्रिया

50—(1) किसी विनियम में निहित उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई कर्मचारी जो उसे सौंपी गई इयूटी का उल्लंघन करता है या जिसे किसी आपराधिक अवराध या अधिनियम की धारा 103 के अधीन किसी अन्याधि के लिये दोष सिद्ध किया गया हो या ऐसा कोई कार्यवाही हो, जिसे इस विनियमवली द्वारा प्रतिविद्ध किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक द्वारा दण्डित किया जा सकेगा:—

(क). परिनिदा;

(ख). बेरबवृद्धि या पदावाति कारोंका जाना;

(ग). कर्मचारी के आचरण द्वारा संघ, मिल, आसवनी इकाई या अन्य वाणिज्यिक अधिकारात्व को हुई किसी आधिकारिक हानि को पूर्णतः या अंशतः पूरा करने के लिये बतना

(घ). कर्मचारी द्वारा मालिक रूप से धूत पद या श्रेणी;

(ङ). सेवा से हटाया जाना; या

(च). सेवा से पदचयुक्ति।

प्र०

उक्ते  
नी  
न।

(2) दण्डादेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को निरन्वाद रूप से दी जायगी, और इस आशय की प्रविष्टि कर्मचारी के सामाजिकलेख मेंकी जायगी ।

(3) (क) आरोप-पत्र कर्मचारी को अनराध की नमीरता के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दण्ड दिया जायगा परन्तु छण्ड (1) के उपचण्ड (घ), (झ) और -(च) के अधीन कोई आःस्ति अनुशासनिक कार्यवाही किये विना आरोपित नहीं की जायगी ।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी बेतनवृद्धि रोकने के लिये आदेश पारित करते समय उस अवधि का लिखित रूप में उल्लेख करेगा किसे लिये वह रोकी जाय और यह भी उल्लिखित करेगा कि वया उनका प्रभाव भावी बेतनवृद्धि या पदान्वयन का स्थगित करना होगा ।

51--(1) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा किया जायगा जो नैंतर्यक न्याय के तिदान्तों का सम्यक अनुपालन करेगा; जिसके लिये यह अवश्यक होगा कि—

अनुशासनिक  
कार्यवाही

(क) कर्मचारी को आरोप-पत्र तासील किया जायगा जिसमें आरोप होगे और प्रत्येक आरोप के सार्वत्र नगे साध्य का उल्लेख होगा और उमसे समुचित समय के भी त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी ;

(ख) ऐसे किसी कर्मचारीको अपने खर्च पर माझी पेश करने या अपने बचाव में साक्षियों की प्राप्तिरीक्षण करने का अवसर दिया जायगा और यदि वह चाहे तो उसे व्यक्ति-गत सुनवाई करने का भी अवसरदिया जायगा ;

(ग) यदि आरोप-पत्र के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न हो या दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही किये विना या अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखे विना समुचित दण्ड दे सकता है :—

(क) जहाँ किसी कर्मचारी को कदाचारके आधार पर, किससे उसे अवधिक आरोप पर दोष-मिल किया गया है, जेवा से पदच्युत किया जाय या हटा दिया जाय ; या

(ख) जहाँ कोई कर्मचारी फरार हो गया है और उमका पता ठिकाना मिल, संघ, आसदनी इकाई या संघ के विस्तीर्ण अधिकारी अधिकारी को तीन मास से अधिक समय तक जात न हो ; या

(ग) जहाँ कोई कर्मचारी पर्याप्त कारण विना, जांच अधिकारी के समक्ष देव उसे विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित होने के लिये लिखित रूप में बुलाया जाय, उपस्थित होने से इनकार करता है या असफल रहता है ; या

(घ) जहाँ अन्यथा (कारण अभिलिखित किये जाय) उससे पत्र व्यवहार करना संभव नहीं ।

(3) किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जा सकता है;

(क) जब नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मामला है जिससे कर्मचारी को हटाये जाने पदच्युत किये जाने या पदावनत किये जाने की सम्भावना हो ;

(ख) जब उसके आचरण की जांच किये जाने का तुरन्त विचार हो या जांच विचाराधीन हो और अतिरिक्त उसका उपने पद पर बना रहना संघ या मिल या आसदनी इकाई या संघ के अन्य वाणिज्यिक अधिकारी के हित के प्रतिकूल समझा जाय ;

(ग) ऐसे कर्मचारी, जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध नैतिक अधिकारी कोई आपराधिक आरोप या ऐसा आरोप जिससे उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, से संबंधित अन्वेषण, जांच या विचारण विचाराधीन हो, वह नियुक्ति प्राधिकारी, जिसके अधीन वह कार्यरत हो सके विवकातुसार, उस आरोप से संबंधित समत्त कार्यवाहियों के समाप्त होने तक निलम्बित रखा जा सकता है। पुलिस अन्वेषण या किसी विधि न्यायालय में लम्बित विचारण के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है ।

(12)

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जनवरी, 1989

(4) (क) निलम्बनाधीन कोई कर्मचारी वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ता के द्वारा उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जनवरी, 1989

(1/2) के द्वारा वर्जीन निर्वाह भत्ता का हृदय द्वारा होता है:

परन्तु जीवन-निर्वाह भत्ता का कोई भुगतान उस समय तक नहीं जिया जायगा जब तक कि कर्मचारी ने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर दिया हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान न हो जा। कर्मचारी की विसी व्यवसाय नियोजन, कारबाह, वृत्तिया व्यवसाय में नहीं लगाया और निलम्बनाधीन अधिकारी के द्वारा उसने पारिथमिक अधिकारी को द्वारा उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जनवरी, 1989

(ख) यदि संवधित कर्मचारी की कोई वृद्धि न होने के कारण निलम्बन की अवधि छँग से अधिक हो जाती है, तो जीवन-निर्वाह भत्ता उसके वेतन और महंगाई भत्ते के 3/4, तक वृद्धि के द्वारा दिया जायगा।

(ग) (एक) जब कोई कर्मचारी वहां किया जाय तब नियुक्ति प्राधिकारी निलम्बन की अवधि के लिये भुगतान किये जाने वाले वेतन और भत्तों के संबंध में विशिष्ट आदेश देंगे और यह भी आदेश देगा कि इकत्र अवधि ड्यूटी पर व्यक्ति वी गयी अवधि मानी जायगी या नहीं।

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी की यह साथ हो कि कर्मचारी को पृष्ठतया निर्देश द्वारा दिया जायगा जिसका दृढ़ अधिकार होता है, तो कर्मचारी को वह पूर्ण वेतन और भत्ता दिया जायगा जिसका दृढ़ अधिकार होता है।

(दो) उप-विविधाय (1) के परन्तु के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में कर्मचारी को वेतन और भत्तों का एंजी भाग दिया जायगा जैसा नियुक्ति प्राधिकारी आदेश दें।

(घ) निलम्बनाधीन कर्मचारी (1) कोई अवधिकारी को जहां उसे रिपोर्ट करने वा निदेश दिया जाय, प्रतिदिन रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जायगी।

### अध्याय-ग्राट

अपील करने का अधिकार  
अपील प्राप्ति  
कारी

शर्त जिनका  
समाधान अपील  
को करना चाहिये

52--किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, जिसके द्वारा हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, विशेष अपील करने का अधिकार होगा।

53--कोई अपील, उस दिनांक से जब कर्मचारी उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रति प्राप्त हो, 30 दिन की अवधि के भीतर विरुद्ध प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायगी।

54 (1) अपील अप्रेजी या हिन्दी में लिखी जायगी और अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी।

(2) अपील प्राधिकारी एसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे वह समाधान होने पर कि अपीलार्थी के पास समय से अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण ये विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है।

(3) अपील नम्ब और आदर्श रुक्त भाषा में व्यक्त की जानी चाहिये।

(4) अपील में वांछित अनुत्तोष विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

### अध्याय-नौ

वाह्य सेवा

स्वयं सेवाओं में  
कर्मचारी की  
प्रतिनियुक्ति

55--(1) इस विनियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकल प्रभाव डाले विना कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना जो प्रति नियुक्ति को प्रभावित करने वाली अवधि नियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकता।

(2) जहां किसी कर्मचारी की सेवाये वाह्य नियोजक के अधिकार में रखी जाय वहां प्रति-नियुक्ति की एक शर्त यह होगी कि नियोजक को कर्मचारी की सेवाओं का समस्त व्यय बहन करना चाहिए जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होगा:

(क) कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के द्वारा उत्तराधीन सेवा;

(ख) कर्मचारी को देय यात्रा-भत्ता जिससे वह वाह्य नियोजक के अधीन घपनी संघ की सेवा में अपनी त्रैनारी पर वापस आ सके।

(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अंजित वाकाशः

(घ), संघ में कर्मचारी की भविष्य निधि के बाते में नियोजक का अंशदान इसके अतिथित वाह्य नियोजक से भी उपदान में या किसी अन्य घनरौशि में जिसके लिये कर्मचारी अपनी से वानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे मानकम पर जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय, पात्र हो सके, अंशदान करने की अपेक्षा की जा सकती है।

### अध्याय-दस

#### कार्यभार प्रहृण करने का समय

56-- (1) किसी कर्मचारी को कार्यभार प्रहृण करने का समय दिया जायगा जिससे कि वह--

कार्यभार प्रहृण करने का समय

(क) पुराने पद पर रहते हुए नये पद का जिस पर वह नियुक्त किया जाय, कार्यभार प्रहृण कर सके;

(ख) चार मास से अधिक अवधि के अवकाश से वापस लौटने पर जपा पद प्रहृण कर राने, या अवकाश की अवधि चार मास से अधिक हो जाय और कर्मचारी को अपने नये पद पर नियुक्ति की पर्याप्त सूचना न मिली हो।

(2) जब किसी कर्मचारी के मुद्यालय में परिवर्तन अन्तर्गत न हों तो उसे कार्यभार प्रहृण करने का समय नहीं दिया जायगा।

57--कार्यभार प्रहृण करने के दौरान किसी कर्मचारी वा वेतन और भूता विनियम-3 के अनुसार अवधारित किया जायगा।

कार्यभार प्रहृण करने के दौरान वेतन और भूता

अवधि जिसके लिये अनुमत्य हो

यिस प्रकार गणना की जायगी

कार्यभार प्रहृण करने के समय के पश्चात् इकता

58--कार्यभार प्रहृण करने का समय जो किसी कर्मचारी को दिया जा सकता है सात दिन से अधिक नहीं होगा। जिसके अन्तर्गत याता पर ध्यतीत किये गये दिनों की संख्या नहीं होगी।

59--किसी कर्मचारी को कार्यभार प्रहृण करने के लिये अनुमत्य समय की गणना करने में वह दिन जब वह अपने पुराने पद से अवमूक्त किया जाय, निकाल दिया जायगा, किन्तु उस दिन के जब वह अमूक्त किया जाय, ठीक पश्चात् पहले वाले सार्वजनिक अवकाश को कार्यभार प्रहृण करने के समय में समिलित किया जायगा।

60--ऐसे किसी कर्मचारी के संबंध में जो कार्यभार प्रहृण करने के लिये अनुमत्य समय के भीतर अपने पद को प्रहृण नहीं करता, यह समझा जायगा कि उसने विनियम-41 का उल्लंघन किया है।

### अध्याय-चारह

#### उपादान और भविष्य निधि

61--जैसा यहां पर स्पष्ट रूप से उपलब्धित है उसके सिवाय, सेवा के सदस्य उपादान के मामले में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी उपादान विनियमावली, 1982 (उत्तर प्रदेश कोष्ठा पर्टिक शुगर फ्लैट्रीज फ्लैटरेशन इम्पलाइज एच्यूटी रेग्लेशन, 1982) के उपदानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

उपादान

62--किसी कर्मचारी की नियन्त्रण सेवा की गणना करने में उसकी या तो सभ में या मिल में या आसवनियों में या संघ के अन्य वाणिजिक अधिकारी नों में निर्वाचित रूप से की गयी सेवा को नियन्त्रण सेवा समझ जायगा।

भविष्य निधि

63--प्रत्येक कर्मचारी समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियमावली, 1982 (उत्तर प्रदेश कोष्ठा पर्टिक शुगर फ्लैट्रीज फ्लैटरेशन इम्पलाइज काटीटूरी प्राविडेन्ट फ्लैट रेग्लेशन, 1982) के उपदानों के अनुसार कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य हो जायगा और उसमें अंशदान करेगा।

### अध्याय-वारह

#### सेवा विनियमावली का नियन्त्रण

64--इस विनियमावली के नियन्त्रण के संबंध में प्राधिकारी का विनियम अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

प्राधिकारी का नियन्त्रण अन्तिम होगा।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जनवरी, 1989

### अनुसूची

(नियम ३ देखिए)

संघ के ग्रन्थीन पदों का वर्गीकरण

समूह "क":—उस बेतनमान वाले पद जिनका व्यूनतम 1000 रुपये (अपुनरीक्षित) प्रति मास हो।

समूह "ख":—उस बेतनमान वाले पद जिनका व्यूनतम 500 रुपये प्रतिमास या अधिक हो। किन्तु 1000 रुपये प्रतिमास से कम हो (अपुनरीक्षित)।

समूह "ग":—उस बेतनमान वाले पद जिसका व्यूनतम 350 रुपये प्रतिमास या अधिक हो किन्तु 500 रुपये प्रतिमास से कम हो (अपुनरीक्षित)।

समूह "घ":—उपर्युक्त वर्गीकरणों में से किसी के ग्रन्थार्थ न आने वाले पद।

आज्ञा से,

ब्रह्मण्ड प्रताप सिंह,

सचिव,

चीनी उद्योग एवं गन्धा विभाग

तथा

प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि,

लखनऊ।

In pursuance of the Provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the Publication of the following English translation of Notification 1589 SO/XVIII-6-71-88, dated January 6, 1989.

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 122 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act No. XI of 1966), the Governor is pleased to approve the regulations framed by the Authority as required under Government Notification No. 474/XII-C-1-1987-7-(13) 76 T.C., dated March 31, 1987 regarding recruitment, emoluments, terms and conditions of service including disciplinary control of the employees of the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Ltd., Lucknow.

2. Under the aforesaid sub-section (2) the Governor is further pleased to direct that these regulations shall be published in the Gazette.

## THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD., EMPLOYEES SERVICE REGULATIONS, 1988

### CHAPTER I

#### Preliminary

**Short title extent and commencement** 1. (1) Those Regulations may be called the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Limited Employees Service Regulations, 1988.

(2) They shall apply uniformly to every wholetime employee appointed by the Federation and posted at the Head Office of the Federation or at the Federations own units or at any constituent factories as hereinafter defined except those :—

(i) who are subject to the industrial or labour laws and the rules, regulations or standing orders made in pursuance of any such laws;

(ii) who are working on deputation from the State Government or from Local Bodies or from any other organisation. The staff under this category will be governed by service rules of their parent department or organisations as well as by their terms of deputation.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 ;

(b) 'Appointing Authority' means the Managing Director of the Federation ;

(c) 'Apprentice' means a person who is undergoing apprenticeship training in the Factory or Federation in pursuance of a contract of Apprenticeship ;

(d) 'Authority' means the Commissioner and Secretary, Sugar Industry and Cane Development Department ; Uttar Pradesh Shasan ;

(e) 'Casual employee' means an employee who is engaged on daily-wage basis ;

(f) 'Chairman' means the Chairman of the Federation ;

(g) 'Committee of Management' means the Committee of Management or the Administrator to which the Management of the affairs of the Federation is entrusted under section 29 of the Act ;

(h) 'continuous service' means uninterrupted service under the Federation or Factories and includes service, which may be interrupted merely on account of sickness, or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal or a lockout or cessation of work, which is not due to any fault on the part of the employees ;

(i) 'employee' means any persons appointed by the Federation as whole-time employee of the Federation or Factories or Distilleries and other commercial establishments of the Federation including a person employed as whole time employee in managerial or supervisory capacity but excluding the following categories of employees :

(i) casual employees or persons employed on contract basis ;

(ii) Government servants and other persons employed on deputation ;

(iii) Apprentices and Trainees during the period of apprenticeship or training as the case may be.

(iv) Persons retired on superannuation and re-employed.

(j) 'Factories' means the Co-operative Sugar Factories and Distillery Units under the supervision and control of the Federation ;

(k) 'family' of an employee includes :

(i) (A) in relation to a male employee, his wife, sons, step-sons, unmarried daughters or step-daughters, dependent on him, whether residing with him or not,

(B) in relation to a female employee, her husband, sons, step-sons, unmarried daughters or step-daughters dependent on her whether residing with her or not ;

(ii) any blood relation of the employee who is wholly dependent on such employee but does not include a wife or husband legally separated, or a son, step-son, unmarried daughter or unmarried step-daughter, who is no longer, dependent upon him or her, or of whose custody, the employee has been deprived of by law.

(l) 'Federation' means the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Ltd., Lucknow.

(m) 'Managing Director' means the Managing Director of the Federation.

(n) "non-regular employee" means a person who is not employed on regular establishment of the Federation, Factories or other Commercial establishment or Distilleries, but is employee for work which is essentially

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जनवरी, 1989

of a purely temporary nature like construction work or expansion or employed in connection with temporary increase in permanent work;

(o) 'pay' means the amount drawn by an employee as—

(i) basic pay sanctioned for the post;

(ii) special pay or personal pay; and

(iii) any other emoluments which may be specially classed as pay by the Authority. It does not include dearness allowance, bonus, travelling allowance or such other allowance;

(p) 'Rules' means the U.P. Co-operative Societies Rules, 1968;

(q) 'salary' means all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or are payable to him in cash and includes pay, dearness allowance, house rent allowance, interim relief, but does not include any bonus, commission and any other allowance;

(r) 'Selection Committee' means a selection Committee, constituted under regulation, 13;

(s) 'superannuation' means the attainment by an employee of such age as has been specified in regulation 21.

(t) 'trainee' means a person who on recruitment has been placed on training for a period specified in the appointment order of such person and shall include any period extended for the purpose by a subsequent order;

(u) 'Year' means the cooperative year commencing on the first day of July and ending with the 30th June next following.

## CHAPTER-II

### General Conditions of Recruitment

#### Classification of posts

3. (1) The classification of the posts under the Federation for the purposes of appointment, control and discipline shall be in accordance with the schedule appended to these regulations;

(2) The Authority may, by order, amend the schedule referred to in sub-regulation (1) from time to time.

4. A candidate for direct recruitment to a post of service under the Federation must be:—

(a) A citizen of India, or

(b) A Tibetan refugee, who came over to India before January 1, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (former Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidates belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour, a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that the candidates belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

**NOTE -**A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview arranged for selection and he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour and made available to the Federation within the time stipulated therefor.

5. (1) A candidate for direct recruitment to a post under the Federation must not be less than 18 years of age. The upper age limits shall be fixed by the appointing authority subject to directions, if any, of the Authority, in the case of each cadre or post, from time to time. Age

(2) The maximum age limit may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes as may be decided by the appointing authority taking into consideration the relevant orders of the State Government issued from time to time.

(3) The appointing authority may relaxe the upper age limit in the case of an employee who is otherwise eligible to apply for a post to be filled by direct recruitment.

(4) A person shall, at the time of his initial appointment, produce the proof of his age to the appointing authority.

(5) The proof of age under sub-regulation (4) shall be the certificate of High School or equivalent examination. Where a person has not passed any such examination or where, for reasons beyond his control, it is not possible for him to produce such certificate he shall be required to produce such proof as the Appointing Authority may consider to be necessary.

(6) The date of birth of an employee recorded in the certificate of his High School or equivalent examination, or where an employee has not passed any such examination, the date of birth or the age recorded in his service book at the time of his entry into service, shall be deemed to be his correct date of birth or age, case may be, and no application or representation shall be entertained for correction of such date or age in any circumstances whatsoever.

6. Subject to the directions regarding the procedure and source of recruitment by the Authority, the Managing Director shall lay down the minimum essential qualifications, and wherever necessary preferential qualifications and also specific experience required for a particular post. Qualification

7. The character of a candidate for direct recruitment to the service must be such as may render him suitable in all respects for employment in the service of the Federation. His service shall not be made regular till such verification is done to the satisfaction of the Appointing Authority. Character

**NOTE -**Any person dismissed by the State Government or Union Government or by any Undertaking or Body owned or controlled by the Union Government of the State Government or by a local authority or by body corporate shall be deemed to be ineligible.

8. No candidate shall be appointed to a post in the service of the Federation unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness of such medical authority as may be specified by the appointing authority. Physical Fitness

9. No candidate who has more than one spouse living or who has married a man or woman already having a wife or husband living, shall be eligible for appointment to a post under the Federation. Marital Status

10. Reservation of posts for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, and other categories, if any, shall be in accordance with such orders of the State Government as may be issued from time to time. Reservation of posts

उत्तर प्रदेश असाधारण नज़र, 6 जनवरी, 1989

### CHAPTER III

#### Recruitment And Appointment

Creation Posts

11. Subject to such directions as may be issued by the State Government in this regard, the power to create posts shall vest in the Authority. The Authority shall, from time to time, determine the number of posts of each group in the service of the Federation.

Source of Recruitment

12. (1) Appointment to posts under the Federation of Groups 'A', 'B' and 'C' shall be made,—

- (a) by direct recruitment ; or
- (b) by promotion from the employees through a departmental test or an interview or in such other manner as may be determined by the Managing Director from time to time; or
- (c) by deputation or employment on contract basis ;
- (d) from any other source as may be approved by the Authority.

(2) All Group 'A' posts, shall be filled by direct recruitment.

Selection Committee

13. (1) There shall be a Selection Committee for the recruitment of candidates for appointment to posts under the Federation.

(2) The Committee for the selection of candidates to the posts of Groups A, B and C shall consist of the following members—

- (a) Managing Director ..... Chairman
- (b) Two experts to be nominated by the Authority ..... Members.

(3) The selection of candidates for the posts of 'Group 'D' shall be made by such officer as may be authorised by the Managing Director.

Selection

14. Subject to the provision of these Regulations, the Authority shall determine from time to time the source and procedure for selection to the posts in the Federation. The Selection Committee duly constituted under Regulation 13 shall select the candidates from the source and in accordance with the procedure determined by the Authority and draw up a panel of names of selected candidates arranged in order of their merit and furnish it to the Appointing Authority together with its recommendations. The Appointing Authority shall approve the list and get it posted on the notice board. Any panel prepared in this manner will remain alive for one year from the date of its approval.

Commencement of Service

15. Except as otherwise provided by or under these Regulations, service of an employee if he reports for duty in the forenoon at the place and time intimated to his by the Managing Director shall be deemed to commence from the day on which he joins and assumes charge of the post against which he has been appointed. In case a candidate joins in the afternoon, his service shall commence from the next following day :—

Provided that the seniority of the selected candidates shall be in order of merit determined by the selection committee and the commencement of service shall not affect such seniority.

Probation

16. (1) Every employee shall initially be appointed on probation for such period as the Appointing Authority may specify in his letter of appointment.

(2) During the period of probation the services of an employee may be dispensed with by the Appointing Authority without notice.

(3) The period of probation as specified in the letter of appointment may be extended by the Appointing Authority from time to time.

Discharge during probation

17. (1) An employee directly recruited to a post may, at any time, during the period of probation be discharged from the service of the Federation under the orders of the Appointing Authority.

(2) An employee promoted on a higher post on probation may be reverted by the appointing authority to his original substantive post at any time during the probation or the extended period of probation, as the case may be.

(3) The orders under this regulation in respect of Groups A and B posts shall be subject to the approval of the Authority.

18. A probationer may be confirmed by a specific express order in writing, on the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct are reported to be satisfactory, his integrity is certified and the Appointing Authority considers him to be fit for such confirmation.

Confirmation

19. (1) Subject to provision of clause (c) of regulation 12 an employee shall not leave or discontinue his service during the period stipulated in the bond executed by him. An employee shall give a notice of three months in writing of his intention to leave or discontinue the service in cases where the period stipulated in the bond expires or where no such bond has been executed. The notice shall be given to the Appointing Authority. In case of violation by an employee of the provisions of this sub-regulation, he shall be liable to pay as compensation a sum equal to his pay for the period of notice:

Termination of Employment

Provided that the payment of such compensation may be waived by the Appointing Authority at his discretion.

(2) (a) The Appointing Authority may terminate the services of a confirmed employee on giving him three month's notice or pay in lieu thereof.

(b) The services of a temporary employee may be terminated at any time by giving one month's notice or pay in lieu thereof.

(3) Nothing in sub-regulation (2) shall affect the right of the Managing Director to terminate the service of an employee without notice or pay in lieu if it is certified by the Chief Medical Officer, that the employee has become permanently incapacitated or has become infirm to continue in service.

(4) (a) An employee against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave or discontinue his service without the prior approval in writing of the Appointing Authority and any notice or resignation given by such employee shall not take effect unless, it is accepted by the Appointing Authority.

(b) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against an employee for the purpose of this sub-regulation if he has been placed under suspension under Regulation 51(3) of these Regulations or any notice has been issued to him asking him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him or any charge-sheet has been issued to him under Regulation 51 and the same will be deemed to be pending till final orders are passed by the Appointing Authority.

*Explanation 1* - The expression 'month' used in this Regulation shall be reckoned according to the English Calendar and shall commence from the day following the date on which notice is given by the employee or the Appointing Authority, as the case may be.

*Explanation 2* - A notice given by an employee under sub-regulation (1) shall be deemed to be proper only if he remains on duty during the period of the notice, and an employee shall not be entitled to set off any leave earned and not availed of by him against the period of such notice.

(5) It shall be open to the Appointing Authority to relieve an employee who tenders a resignation without any notice or accepts notice for a shorter period.

20. The resignation of an employee shall not be effective unless it is accepted by the Appointing Authority. The Appointing Authority may refuse to accept the resignation if -

Acceptance of Resignation

(a) the employee is under an obligation to serve the Federation for a specified period which has not yet expired; or

(b) the employee owes the Federation any sum of money or any other liability till such time as the said amount is paid or the liability is discharged, or

(c) for any other sufficient grounds to be recorded in writing.

(20)

Superannuation  
and Retirement

21. (1) An employee shall retire on attaining the age of 60 years :

Provided that an employee, who attains the age of superannuation on any day other than the first day of any calendar month, shall retire on the last day of that month.

4. (2) Nothing in this regulation shall be deemed to affect the powers of the Managing Director to employ on contract for a stipulated period any person above the age of 60 years if the interest of the Federation so demands.

Record of service  
Promotion

## Promotion

## ✓ Reversion

Pay on Re-  
cruitmentFixation of Pay  
on deputation and  
on contractPay when to  
accrue and payablePay and allowances  
when not payablePay and Allow-  
ances when to be  
ceasedPay during  
TransferCHAPTER IV  
Record of Service, Promotion and Reversion

22. A record of service shall be kept in such form and shall contain such information as may be indicated by the Managing Director.

✓ 23. The promotion policy and number of posts to be filled in by way of promotion of the Federation employees shall be determined by the Authority from time to time.

✓ 24. (1) An employee promoted from one post to another may be reverted without notice at any time within one year of such promotion.

(2) An employee who has been appointed to officiate in a higher post and whose appointment is subject to his undergoing probation for any specified period or otherwise, may be reverted without notice at any time, when he is so officiating.

CHAPTER V  
Pay, Allowance and Other Service Conditions

25. (1) An employee directly recruited shall draw pay and allowances applicable to the post, provided that in deserving cases higher starting pay may be allowed by the Appointing Authority.

(2) The Authority may, from time to time, by order determine the manner in which the fixation of pay shall be carried out in the cases of promotion or appointment in identical, equivalent scales of pay, keeping in view the relevant Government Rules contained in Financial Hand Book, Volume 2, Parts II to IV as amended from time to time.

26. (1) In the case of an employee appointed from Government service or from any other service on deputation, the terms and conditions of the deputation shall be such as may be agreed upon between the Federation and the employer of his parent department.

(2) In the cases of an employee engaged on contract, the fixation of pay and conditions of service will be in accordance with the conditions of contract between the Federation and the employee.

27. Subject to the provisions of these regulations, pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an employee and shall become payable on the afternoon of the last working day of each month in respect of the service rendered during the said month.

28. Pay and allowances shall not be payable for a part of a month to an employee who is found absent without sanction of leave or who leaves and discontinues his service without due notice during the month, unless such leave is sanctioned or notice has been waived by the Appointing Authority.

29. Pay and allowances shall cease to accrue as soon as an employee ceases to be in service. In case of an employee dismissed from service, the pay and allowances shall cease from the date of his dismissal. In the case of an employee who dies while in service, the pay and allowances shall cease from the day following the date on which the death occurs.

30. When an employee is transferred from one place to another, he shall during any interval of duty between the date of his handing over charge of the old post and the date of his taking over charge of the new post, draw the pay and allowance of the old post subject to usual time allowed for the purpose.

31. (1) An employee shall be entitled to an annual increment in the pay scale of the post to which he has been appointed provided the increment has not been withheld as a disciplinary measure or on account of poor performance or at the stage of crossing the efficiency bar.

Annual Increment

(2) All the employees, except those who are governed by the pay scales of Sugar Wage Board, or any other Wage Board whose increment becomes due on a date other than the first day of a calendar month, will be granted increments on the first day of the month in which the increment falls due.

(3) In case of an employee who has remained off duty on account of extraordinary leave, study leave or any other leave, the date of increment shall correspondingly be shifted and the period of such leave shall not be counted for the purpose of increment.

(4) An employee who officiates in a higher post in a higher scale of pay shall be eligible to count for increments for the period spent by him on such higher post or higher time scale of pay in his lower post when reverted to that post or time scales of pay.

32. To reward an employee for excellent performance and in order to motivate him for continuous excellent performance, the Managing Director may grant premature or additional increments to an employee in his time scale of pay.

Premature Increment

33. The employees, working in the pay scale prescribed by Sugar Wage Board or other Wage Boards shall be entitled to such dearness and other allowances as admissible to such employees as per that Wage Board.

34. (1) The Appointing Authority shall have the power to make postings of the employees to any co-operative Sugar Factory, distillery unit or to any other establishments under the control of the Federation, in Uttar Pradesh or to any other place in India and also to transfer them from one co-operative Sugar factory, distillery unit or establishment to another.

Transfer

(2) When an employee is transferred or promoted from one post to another involving a change of headquarters, he will be entitled to joining time and allowances payable on transfer as may be determined by the Authority from time to time under these regulations.

## CHAPTER VI

### Conduct and Discipline

35. Unless otherwise expressly provided in the order of appointment :—

(a) Every whole-time employee shall be at the disposal of the Federation, Factory concerned, Distillery unit, or other commercial establishment of the Federation, and he shall serve the Federation, Factory, Distillery unit or other commercial establishment of the Federation, in such capacity and during such hours and at such places as he may from time to time, be directed ;

(b) Every employee shall abide by the provisions of the Act, Rules, Regulations and Byelaws, as well as the orders issued from time to time by the Managing Director.

(c) Every employee shall adhere to and abide by these Regulations and shall observe, comply with and obey all orders and directions which may, from time to time, be given to him by any authority under whose jurisdiction, superintendence or control he may for the time being be placed ;

(d) No employee shall divulge directly or indirectly to any person the business secrets of the society or reveal the business information of a confidential nature, which, during the course of his employment, has come to his possession or knowledge or has been collected by him :

Provided that with the permission of his superior officer he may communicate only such information as is needed by any authority for the disposal of disputes or conduct of inquiry, inspection, investigation or audit or where such information is required to be produced before a court of law.

36. (1) Every employee shall serve the Federation, Factory, Distillery Unit, and other commercial establishment of the Federation to promote interest of the Co-operative Society concerned.

(2) Subject to the provisions of any law relating to intoxicating drinks or drugs for the time being in force in any area no employee of the Federation, Factory, Distillery Unit or any other Commercial Establishment of the Federation shall—

- (a) while on duty, be under the influence of such drinks or drugs;
- (b) appear in a public place in a state of intoxication as drunkard; or
- (c) habitually use such drinks or drugs.

(3) No employee of the Federation, Factory, Distillery Unit, or any other Commercial Establishment of the Federation shall—

(a) indulge in disorderly or indecent behaviour, gambling, or betting or committing nuisance within the premises of the Federation, Factory, Distillery Unit or any other Commercial Establishment of the Federation or do anything which disturbs or dislocates the business of the Society, or

(b) cause or attempt to cause willful damage to the property of the Federation, Factory, Distillery, Unit or any other Commercial Establishment of the Federation or of persons dealing with the Federation, Factory, Distillery Unit or any other Commercial Establishment of the Federation or

(c) abet or instigate any of the employee for act of misconduct omission or violation of duties, or

(d) misappropriate loans or advances obtained from the Federation, Factory, Distillery, Unit or any other Commercial Establishment of the Federation, under his charge or care.

(4) No employee of the Federation, Factory, Distillery Unit or any other Commercial Establishment of the Federation shall take part in or associate himself with any political demonstration, or canvass or otherwise use his influence in any election to the committee of Management or any other office of the Co-operative Society or Factory.

(5) No employee shall make any statement to the press or contribute article to the press or magazine or give any talk on the radio in connection with the affairs of the Federation, Factory, Distillery Unit or any other Commercial Establishment of the Federation of which he is an employee, without the prior sanction of the managing Director or the Chief Executive of the Factory concerned.

#### Restriction of employment

37. No employee shall accept, solicit or seek any outside employment or office of profit, without previous permission in writing of the appointing authority, or any other officer authorised in this behalf.

#### Permission for further study

38. No employee shall join any educational institution for further studies except with the prior sanction of the Appointing Authority. The permission so required shall be given in suitable cases and for specific period only when the Appointing Authority or any other officer authorised by him, is satisfied that such permission to the employee shall be without detriment to the efficient discharge of his duties.

#### Bar on acceptance of gift or gratification

39. An employee shall not solicit or accept any gift or gratification from any subordinate employee or from any person who has any dealing with the concerned factory or Federation.

#### Prohibition of activities for pecuniary gains

40. No employee shall personally carry on any other activity for pecuniary gains anywhere on his own account or as an agent for others without prior written permission of the Appointing Authority or other officer authorised in this behalf.

#### Absence from duty

41. (1) A employee shall not absent himself from his duties without permission from the Appointing Authority or any other officer authorised by him.

(2) An employee who absents himself without leave or over stays beyond his leave, except under circumstances beyond his control, for which he must tender a satisfactory explanation, shall not be entitled to draw pay and allowances for the period of such absence or over stay and shall further be liable to such disciplinary action, as may be imposed on him under the circumstances.

42. An employee must not absent himself from his headquarters of posting except on duty without obtaining the sanction from the officer under whose superintendence and control he works.

Permission leave  
headquarters

43. Every employee shall attend his duties punctually and sign the attendance register (unless not exempted) which shall be put up before the controlling officer.

Punctuality

44. Every employee shall in the last fortnight of the Co-operative year in every alternate year, disclose his or her assets in writing to the Managing Director.

Disclosure of  
Assets

45. No employee shall bid in any auction of the property or produce belonging to the Federation, Factory, Distillery Unit or any other Commercial establishment of the Federation either directly or indirectly without prior permission of the Managing Director.

Prohibition for  
bidding and auction

46. No employee shall enter into or carry on any credit transaction with his society or any other society except as otherwise permitted under the Act or Rules or the Bye-laws of the Society concerned.

Bar on credit  
transactions

47. No employee who has a wife or husband living, shall contract another marriage.

Restriction on of  
Bigamy

48. An employee who is convicted of a criminal charge involving moral turpitude by criminal court, shall be liable to dismissal.

*Explanation—* "Conviction" means sentence of imprisonment fine or both.

Involvement in  
acts involving  
moral turpitude

49. (1) No employee shall submit any application for appointment elsewhere, except through proper channel.

Application for  
appointment  
elsewhere

(2) Every application for outside employment will be submitted in duplicate:

(3) An employee shall not submit an application for an award of a fellowship, scholarship etc., directly to the authority concerned, unless he or she is sponsored by the Federation, Factory, distillery Unit or any other Commercial establishment of the Federation, as the case may be, or is permitted by the authority to take up such scholarship or fellowship.

## CHAPTER VII

### Penalties and Disciplinary Proceedings

50. (1) Without prejudice to the provisions contained in any regulation, an employee who commits a breach of duty enjoined upon him or has been convicted for a criminal offence or an offence under section 103 of the Act or does anything which is prohibited by these regulations, shall be liable to be punished by the Appointing Authority with any of the following penalties :

Penalties

- (a) Censure,
- (b) Withholding of increment or promotion,
- (c) Recovery from pay or security deposit to compensate in whole or in part any pecuniary loss caused to the Federation, Factory, Distillery Unit or any other Commercial establishment by the employee's conduct,
- (d) Reduction in rank or grade held substantively by the employee's
- (e) Removal from service, or
- (f) Dismissal from service.

(24)

उत्तर प्रदेश अमाधारण ग जट, 6 अगस्त 1989

(2) Copy of the order of punishment shall invariably be given to the employee concerned and entry to this effect shall be made in the service record of the employee.

(3) (a) A charge-sheeted employee shall be award punishment by the appointing authority according to the seriousness of the offence, provided that no penalty under sub-clauses (d), (e) and (f) of clause (1) shall be imposed without recourse to disciplinary proceedings.

(b) The appointing authority while passing orders for stoppage of increment shall state in writing the period for which it is stopped and whether it shall have effect of postponing future increment or promotion.

Disciplinary proceedings

51. (1) The disciplinary proceedings against an employee shall be conducted by an enquiry officer, duly appointed by the Appointing Authority, with due observation of the principles of natural justice for which it shall be necessary that—

(a) the employee shall be served with a charge-sheet containing specific charges and mention of evidence in support of each charge and he shall be required to submit explanation in respect of the charges within reasonable time.

(b) such an employee shall also be given an opportunity to produce witnesses at his own cost, or, to cross examine witnesses in his defence and shall also be given an opportunity of being heard in person, if he so desires,

(c) the appointing authority may pass suitable orders in case no explanation in respect of charge-sheet is received or the explanation submitted is unsatisfactory.

(2) The Appointing Authority may award appropriate punishment, without taking recourse to or continuing disciplinary proceedings in the following cases:—

(a) Where an employee is dismissed or removed from service on the ground of misconduct which has led to his conviction on a criminal charge ; or

(b) Where an employee has absconded and his whereabouts are not known to the Factory, Federation, Distillery Unit or any other Commercial Establishment of the Federation for more than three months ; or

(c) Where the employee refuses or fails, without sufficient cause, to appear before the enquiring officer, when specifically called upon, in writing to appear, or

(d) Where it is otherwise (for reasons to be recorded) not possible to communicate with him.

(3) An employee may be placed under suspension by the appointing authority—

(a) When the appointing authority is satisfied that a *prima facie* case exists, which is likely to result in the removal, dismissal or reduction in rank of the employee ;

(b) When an inquiry into his conduct is immediately contemplated or is pending and his further continuance on his post is considered detrimental to the interest of the Federation or Factory or Distillery Unit or other Commercial Establishment of the Federation ;

(c) An employee in respect of or against whom an investigation, enquiry or trial relating to a criminal charge involving moral turpitude or a charge likely to embarrass him in the discharge of his duties is pending, may, at the discretion of the Appointing Authority under whom he is serving, be placed under suspension until the termination of all proceedings relating to that charge. The departmental proceedings may also be initiated alongwith the police investigation or pending trial in a court of law.

to the  
record

40

(4) (a) An employee under suspension shall be entitled to a subsistence allowance equal to onehalf (1/2) of the pay and D.A. payable thereon:

Provided that no payment of subsistence allowance shall be made unless the employee has furnished a certificate and the Appointing Authority is satisfied that the employee was not engaged in any other employment, business, profession or vocation and has not earned remuneration thereof during the period under suspension.

(b) If the period of suspension extends beyond six months for no fault of the employee concerned, Subsistence allowance shall be increased to 3/4th of his pay and dearness allowance.

(c) (i) When an employee is reinstated the Appointing Authority shall make specific order regarding pay and allowance to be paid for the period of suspension and as to whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty:

Provided that where the appointing authority is of the opinion that the employee has been fully exonerated or his suspension was wholly unjustified the employee shall be given the full pay and allowances to which he would have been entitled had he not been suspended.

(ii) In case not covered by the proviso to sub-regulation (i) the employee shall be given such portion of pay and allowance, as the appointing authority may order.

(d) No leave shall be granted to an employee under suspension, and he may be required to report daily to the concerned office or officer where he would be directed to report.

### CHAPTER-VIII

#### Appeals

52. An employee shall have a right to appeal against any order passed by the Appointing Authority which injuriously affects his interests.

Right to A peti-

53. An appeal shall be to the Superior Authority within a period of 30 days from the date on which the employee receives a copy of the order appealed against.

Appellate  
Authority

54. (1) The appeal shall be written in English or Hindi and shall be signed by the Appellant.

Conditions which  
an appeal should  
satisfy

(2) The Appellate Authority may, for reasons to be recorded, entertain the appeal after the expiry of the specified period on the satisfaction that the appellant has sufficient cause for not submitting the appeal in time.

(3) The appeal should be couched in polite and respectful language.

(4) The appeal should specify the relief desired.

### CHAPTER IX

#### Foreign Service

55. (1) Without prejudice to the provisions of these regulations, no employee may be deputed to serve under any other employer without the approval of the Appointing Authority who shall determine the duration and the terms and conditions on which the deputation shall take effect.

Deputation of  
Employee to other  
services

(2) Where the services of an employee are placed at the disposal of foreign employer, it shall be a condition of the deputation that the employer should bear the entire cost of the services of the employee including the following :

(a) Pay during joining time;

(b) Travelling allowance payable to the employee to enable him to join his appointment under foreign employer and to return to his posting in the Federation service on the termination of his deputation;

(c) Leave earned, during the period of deputation;

(d) The employer's contribution to the employees' account of Provident Fund in the Federation. In addition, the foreign employer may also be required to make a contribution towards gratuity or any other sum for which the employee may become eligible on his retirement, on such scale as may be fixed by the Appointing Authority.

CHAPTER X  
Joining Time

56. (1) Joining time may be granted to an employee to enable him :  
 (a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post, or

(b) to join a new post on return from leave of not more than four months duration, or although the duration of leave exceeds four months the employee has not had sufficient notice of his appointment to the new post.

(2) Joining time shall not be granted when no change in the functions of the employee is involved.

57. The pay and allowance of an employee during joining time shall be terminated in accordance with Regulation 5.

58. Joining time which may be allowed to an employee shall not exceed seven days, exclusive of the number of days spent on travelling.

59. On returning from joining time admitted to an employee, the day on which he is relieved from his old post shall be counted by public holiday following day on which he is relieved shall be included in the joining time.

60. An employee who does not join his post within the joining time allowed to him shall be deemed to have committed a breach of Regulation 51.

CHAPTER XI

Gratuity and Provident Funds

61. Save as herein expressly provided the members of the service shall, in the matter of gratuity, be governed by the provisions of the U.P. Co-operative Sugar Factories Federation Limited Employees Gratuity Regulations, 1987 as amended from time to time.

62. In reckoning the continuous service of an employee his uninterrupted service either in the Federation or in the factories or in the Districts or in other Commercial Establishments of the Federation shall be treated as continuous service.

63. Every employee shall become a member of, and shall subscribe to, the employees contributory Provident Fund in accordance with the Provisions of the U.P. Co-operative Sugar Factories Federation Employees Contributory Provident Fund Regulations, 1982 as amended from time to time.

CHAPTER XII

Interpretation of Service Regulations

64. The decision of the Authority, regarding interpretation of these Regulations shall be final and binding.

SCHEDULE

(See REGULATION 3)

Classification of Posts under the Federation

*Group A*—Posts carrying a pay scale the minimum of which is Rs. 1,000 p.m. (unrevised).

*Group B*—Posts carrying a pay scale the minimum of which is Rs. 500 p.m. or more but less than Rs. 1,000 p.m. (unrevised).

*Group C*—Posts carrying a pay scale the minimum of which is Rs. 350 p.m. or more but less than Rs. 500 p.m. (unrevised).

*Group D*—Posts not covered by any of the above classifications.

By order,

A. P. SINGH,

Sachiv,

Sugar Industry and Cane Development  
Department and Authority.

U.P. Co-operative Sugar Factories  
Federation Ltd., Lucknow.

उत्तर प्रदेश सरकार  
चीनी उद्योग अनुभाग-2

संख्या - संख्या/18-2-95, 71/88

तिथि : दिनांक 31 जूलाई, 95

उपर्युक्त

उत्तर प्रदेश ताइवारण संड अधिनियम, 1904। उत्तर प्रदेश समिति अधिनियम 1965। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11। सन 1966। की धारा 122 की उपधारा 11। के अधीन इक्विटी का प्रयोग करके उक्त धारा 122 और उपधारा 11 के अधीन अधिसूचना संख्या पू.ओ. 402। 12/12-सी-1-76, दिनांक 6 अगस्त, 1977 में गठित प्राधिकारी सदृढारा राज्य सरकार के जनुमोदन हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी तेवा नियमावली, 1988 में तंशेषन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड द्वन्द्यारी तेवा  
तृतीय संशोधन। विनियमावली, 1995

संधिष्ठ नाम और  
गारम -

1-11। यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी तेवा तृतीय संशोधन। विनियमावली, 1995 कहो जाएगी।  
12। यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 11, 12  
और 13 का  
प्रतिस्थापन -

2- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड द्वन्द्यारी तेवा विनियमावली, 1988 में, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 11, 12, 13 और 13 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये विनियम रख दिये जायें, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

वर्तमान विनियम

टर्ड का सूजन  
विनियम-11-

इस संबंध में राज्य सहकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पट्टों का सूजन करने की शक्ति प्राधिकारी में दिवित होगी। प्राधिकारी समय-समय पर तंथ की तेवा में प्रत्येक तम्बू के पट्टों को तंथा अवधारित करेगा।

स्तम्भ-2

सदृढारा प्रतिस्थापित विनियम

इस संबंध में राज्य सहकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के द्व्यैन पट्टों का सूजन और पट्टों के बेतनमान के निर्धारण की शक्ति प्राधिकारी में निहित होगी। प्राधिकारी समय-समय पर तंथ को तेवा में प्रत्येक तम्बू के पट्टों को तंथा अवधारित करेगा।

:- 2 :-

म-12  
का भ्रोत

## वर्तमान विनियम

- 11। संप के अपीन सूह 'क', 'ग' और 'ग' के पटों पर निपुक्तियाँ निम्न प्रकार हो जायेगी -  
 1। तीर्थी भर्ती दारा; या  
 2। विभागीय परीक्षा या साधारणार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति हो जिसे प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर अवधारित करें, कर्मचारियों में से पटोन्लति दारा;  
 3। प्रतिनिपुक्ति या संविटा के आधार पर तेवायोजन दारा;  
 4। किसी अन्य भ्रोत हो जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।  
 12। सूह 'क' के सभी पट तीर्थी भर्ती दारा भरे जायें।
- 11। संप के अपीन पटों पर निपुक्ति हेतु अधिकारियों की भर्ती के लिए एक घयन समिति होगी।

विनियम 13  
घयन समिति

- 12। सूह 'क', 'ग' और 'ग' के पटों पर अधिकारियों के घयन के लिये समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे -  
 1। प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष 2। प्राधिकारी दारा - सदस्य नामनिर्दिष्ट दावेशक

## इत्यादारा प्रतित्यापित विनियम

- 11। संप के अपीन सूह 'क', 'ग' और 'ग' के पटों पर निपुक्तियाँ निम्नप्रकार हो जायेगी :-  
 1। तीर्थी भर्ती दारा; या  
 2। विभागीय परीक्षा या साधारणार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति हो जिसे प्राधिकारी दारा समय-समय पर अवधारित किया जाय, कर्मचारियों में से पटोन्लति दारा; या  
 3। प्रतिनिपुक्ति या संविटा के आधार पर तेवायोजन दारा;
- 12। समस्त सूह 'प' के पटों पर निपुक्ति तीर्थी भर्ती दारा की जायेगी।

- 11। संप के अपीन विभिन्न सूहों के पटों पर निपुक्ति के लिए अधिकारियों के घयन के लिये पृथक-पृथक घयन समितियें होंगी।

- 12। सूह 'क' के पटों के लिये घयन समिति निम्नलिखित होंगी :-  
 1। शासन के सचिव, यीनी उपोग एवं गन्ना विकास क्षिति - अध्यक्ष 2। प्रबन्ध निदेशक - सदस्य 3। शासन के सचिव, सार्वजनिक उपम विभाग दारा नाम निर्दिष्ट एवं प्राधिकारी जो संप्रकृत सचिव होने वाले नाम निर्दिष्ट एवं प्राधिकारी दारा नाम निर्दिष्ट दोनों ते अनपिक व्यक्ति जो उत्त विषय हो, जिसके सम्बन्ध में घयन किया जाना हो, विशेषज्ञ हों - सदस्य

१५। यदि राणा हो । वा में निर्दिष्ट व्यक्ति अनुरूपित जाति/अनुरूपित जनजाति या पिछे कर्म के न हों तो प्रापिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति या काका, जिनका प्रश्नार्थक प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अपिकारियों ने तो, जो कम से कम उस पटे से, जिसे लिर चयन समिति का गठन किया जाना हो, एक वेतनमान उच्च के हों, सह-रक्त उपिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएँ ।

परन्तु यह ही यदि नाम निर्देशन के लिये पात्र उपिकारी उपलब्ध न हों तो प्रापिकारों निर्दिष्ट ऐसे उपयुक्त अपिकारी को विस्तृत उचित समझें, नाम निर्दिष्ट कर लेंगा है ।

१३। समूह "प" के पटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अपिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे प्रबन्धनिर्देशक द्वारा प्रापितृत किया जायगा

१३। समूह "ध" के पटों के लिए चयन समिति द्वारा निर्दिष्ट होगी : -  
१। प्रबन्ध निर्देशक - अध्यक्ष २। प्रापिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक -

३। प्रापिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो से अनपिक द्वारा जो उस विषय के विवेषज्ञ हों जिनके संबंध में चयन किया जाना है - सदस्य

४। यदि खण्ड । वा हो । वा में निर्दिष्ट व्यक्ति अनुरूपित जाति/अनुरूपित जनजाति या पिछे कर्म के न हों तो प्रापिकारों द्वारा उक्त प्रत्येक जाति/जनजाति द्वारा काका, जितका प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे अपिकारियों ने तो, जो कम से कम उस पटे से, जिसे लिर चयन समिति का गठन किया जाना हो, कम से कम सह उच्चतर देन्मान का हो, नाम निर्दिष्ट ही जायेगा ।

14। स्मूह "ग" के पटों के लिए चप्पन समिति में निम्नलिखित होंगी :-

1। तंय का संग्रह प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष

2। प्रबन्ध निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट

स्मूह "ग" या उससे उच्च पट के टो

उपिकारी - सदस्य

3। पटि छण्डाल और 4। में निर्दिष्ट

चप्कि अनुशृण्टि जाति/अनुशृण्टि जन-

जाति या पिछड़े वर्ग के न हों तो

प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति /

जनजाति या वर्ग का, जिसका प्रतिनिधि-

त्व न हो, ऐसे अधिकारियों में से जो

कम से कम उस पट के, जिसके लिये चप्पन

समिति का गठन किया जाना, एक वेतन

मान से कम से कम एवं उच्चतर वेतनमान, के हों, नाम निर्दिष्ट किये जायें ।

उक्त विनियमावली में, विनियम 19 में, उप विनियम 15। के पश्चात्, 3-

निम्नलिखित उपविनियम छढ़ा दिया जाया, अर्थात् :-

• 16। स्मूह "क" और स्मूह "उ" के पट धारक लम्बारियों को सेवायें समाप्त करने के लिए प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाया ।

4- उक्त विनियमावली में, विनियम 21 में, नीचे स्तम्भ 1 में टिप्पेण्ये गये उप विनियम 12। के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम इस दिया जाया, अर्थात् :-

स्तम्भ-1  
विष्मान उपविनियम

1। कम्पारी 60 वर्ष की आयु.  
प्राप्त कर तान पर सेवा-  
निष्ठता होगा :

परन्तु किसी क्लोणडर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर लम्बारी उस माह के अंतिम दिन को सेवा निष्ठता होगा।

स्तम्भ-2  
सनद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

12। पदि संघ के द्वित में ऐता हरना उपित हो कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात किसी रम्भारी हो नियम अधिक के लिये हंसिदा पर लेवायोजित किया जाय तो ऐता हरने की प्रबन्ध निदेशक की यह इकित हत विनियम की किसी बात से प्रभावित हुई नहीं राम्भी जाएगी ।

विनियम 34  
का तर्ज़ीफ़

स्थानान्तरण

अनुसूची का  
तर्ज़ीफ़

5- उक्त विनियमाकली में, विनियम 34 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप विनियम ॥। के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जाएगा, उर्ध्वा :-

#### स्तम्भ-1

##### विष्णान उपविनियम

॥। नियुक्ति प्राप्तिकारी को उप्र० में किसी सहकारी धीनी मिल, आसवनी, हकाई या संघ के नियंत्रणाधीन किसी उन्य उपिष्ठान में या भारत के किसी उन्य स्थान में रम्भारियों की नियुक्तियाँ हरने और उन्हें किसी एक सहकारी धीनी मिल, आसवनी, हकाई या उपिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित हरने की भी इकित होगी ।

#### स्तम्भ-2

##### सहदारा प्रतिस्थापित उपविनियम

॥। प्राप्तिकारी या नियुक्ति प्राप्तिकारी को किसी सहकारी धीनी मिल, आसवनी, हकाई या संघ के नियंत्रणाधीन किसी उन्य उपिष्ठान में रम्भारियों की तैनाती हरने और उन्हें किसी एक सहकारी धीनी मिल, आसवनी, हकाई या उपिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित हरने की इकित होगी किन्तु लालकाम हाप्रबन्धक, आसवनी प्रबन्धक, मुद्यप्रभियन्ता, मुद्यप्रतापनक, मुद्यफेलाक मुद्य गन्ना विकात अपिकारी और समान पट धारण करने वाले उन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्राप्तिकारी के अनुमोदन के अध्ययीन होगा ।

6- उक्त विनियमाकली में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विष्णान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जाएगी, उर्ध्वा :-

#### स्तम्भ-1

##### विष्णान अनुसूची

अनुसूची । विनियम 3 देखिये। संघ के जीपीन पटों का वर्गीकरण समूह-उत्तरवेतनमान वाले पट जिनका न्यनतम 1000 स्प्येज़। अनुसंतीर्थित। प्रतिमात्र हो ।

#### स्तम्भ-2

##### सहदारा प्रतिस्थापित अनुसूची

अनुसूची । विनियम 3 देखिये। संघ के जीपीन पटों का वर्गीकरण समूह-क-उत्तरवेतनमान वाले पट जिनका न्यनतम 3000 स्प्येज़ प्रतिमात्र हो ।

**समूह ब-** उस वेतनमान वाले पट  
जिनका न्यूनतम 500 स्पेष्ट प्रतिमास  
या अधिक हो किन्तु 1000 स्पेष्ट  
प्रतिमास से कम हो। अपुनरीक्षित।।

**समूह ग-** उस वेतनमान वाले पट शिक्षक  
जिसका न्यूनतम 350 स्पेष्ट प्रतिमास  
या अधिक हो किन्तु 500 स्पेष्ट प्रति  
मास से कम हो। अपुनरीक्षित।।

**समूह घ-** उपर्युक्त कार्यकरणों में से  
किसी के अन्तर्गत न जाने वाले पट।

**समूह ब-** उस वेतनमान वाले पट जिनका  
न्यूनतम 2200 स्पेष्ट प्रतिमास या अधिक  
हो किन्तु 3000 स्पेष्ट प्रतिमास से कम हो।

**समूह ग-** उस वेतनमान वाले पट जिनका  
न्यूनतम 950 स्पेष्ट प्रतिमास या अधिक हो  
किन्तु 2200 स्पेष्ट प्रतिमास से कम हो।

**समूह घ-** ऐसे पट जो उपर्युक्त कार्यकरण में  
से किसी के अधीन न आते हों।

आज्ञा है,

। इमरुनाथ ।  
प्राधिकारी,  
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड,  
लखनऊ ।

**संछया-** ।।। एसटी/18-2-71/88 त्रिविनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- निबन्धकागन्ना आयुक्त।, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल समितियाँ, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, 9-ए, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- 3- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐश्वराग, लखनऊ को अधीनी स्थान्तर की एक प्रति के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक ३५-२-१९९५ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट के भाग-४, छांडा क। में अवश्य प्रकाशित करें और गजट के ४०० प्रतियाँ चीनी उद्योग अनुभाग-२, और उत्तर प्रदेश इस्तान, लखनऊ को श्रीम. उपलब्ध करायें।

आज्ञा है,

। इमरुनाथ ।  
प्राधिकारी,  
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड,  
लखनऊ ।



राज ० नं० एल. इन्स./एन्ड पी. ५६।

लाइसेंस नं० इन्स० पी०-४१

लाइसेंस ट. पांस्ट एट कन्सेप्टन्स है०

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिविहित

भाग--४, छठ (क)

(नामान्य परिविहित नियम)

लखनऊ, वृद्धपत्तिवार, १५ मार्च, १९७०

फालून २४, १५११ एक सम्बन्ध

उत्तर प्रदेश सरकार

चीनी उद्योग अनुसार --२

नम्बर ८६७ एस० सी. बी० १८-६-७१-४४

लखनऊ, १५ मार्च, १९७०

### अधिसूचना

सा० प० नि०--९

उत्तर प्रदेश साधारण छठ अधिनियम, १९०४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ सन् १९०४) की धारा २१८ साथ पर्याप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११ सन् १९६६) की धारा १२२ की उपधारा (१) के अधीन लक्षित का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १२२ की उपधारा (१) के अधीन अधिगूचना संख्या-य०आ० ४०२ (II)/१२-सी-१-७६ दिनांक १६ अगस्त, १९७७ में गठित शाखिकारी, एवं द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल गंद मिलिटेंट कार्पोरेशन द्वारा द्वारा विनियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल नघ दिलिटेंट कम्पनी सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, १९७०

१--(१) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल नघ दिलिटेंट कम्पनी द्वारा निर्धारित तारीख प्रथम संशोधन) विनियमावली, १९७० कही जायेगी।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(34)

उत्तर प्रदेश शासनाधारम् गजट, 15 मार्च, 1990

बिनियम 21  
का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कर्मचारी चाली मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा बिनियमावली, 1988 में, विनियम 21 में, नोंचे नंबर - 1 में दिये गये बत्तमान उपविनियम (1) के स्थान पर नंबर - 2 में दिया गया उपविनियम 2 के दिया जायगा, अद्यतः—

बत्तमान उपविनियम

(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आय प्राप्त करने वाले एवं निवृत होंगे।

परन्तु विस्ती कलेष्ठर माह के प्रथम दिनाकर से भिन्न इसी दिनांक को अधिकारिता की आद्य प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन वाले निवृत होंगे।

नंबर — 2

बत्तमान प्रतिनियम उपविनियम (1)

(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आद्य प्राप्त करने वाले पर कर्मचारी निवृत होंगे।

परन्तु किसी कलेष्ठर माह के प्रथम दिनाकर से भिन्न किसी दिनाकर को अधिकारिता की आय प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन वाले निवृत होंगे।

परन्तु यह अंग विनियम प्राप्ति कार्यकारी किसी भी समय विनियमावली की वह अस्त्यादी ही अवधी स्थापी नीत मान वाले नंबर उक्त देवक अवधी उक्त देवक में तीन मास का बेतत देवक यिन तीनी कार्य बताए, उसके पछाद वर्द की आद्य प्राप्त करने के पश्चात् सेवा निवृत्त हो जाने वाली अवधी का बताता है अवधी ऐसा कर्मचारी पैतलील वर्द की आद्य प्राप्त करने के पश्चात् यह संघ के अधिकारिते अधीन वाले वर्द की सेवा पर्याप्त करने के पश्चात् किसी भी समय विनियम प्राप्ति कार्यकारी की तीन मास वाली नंबर देवक अवधी उक्त देवक में तीन मास है।

मात्रा द.

द्वारा द्वारा निवृत्ति

निवृत्ति

का अवधी अवधी दिवाली दिवाली

मात्रा

प्राप्ति कार्य

उत्तर प्रदेश कर्मचारी चाली मिल संघ

लिमिटेड, नवराज।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 24 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 667SC/NVIII-6-71-88, dated 15th March, 1990 :

No. 667 SC/NVIII-6-71-88

Dated March 15, 1990

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 122 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U. P. Act no. XI of 1966) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904) the Authority, constituted in notification no. U. O. 402(1) 12 C-1-76 dated, August 6, 1977 under sub-section (1) of section 122 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereby makes, with the approval of the State Government, the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Ltd., Employees Service Regulations, 1988.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD. EMPLOYEES SERVICE (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 1990

Short title and  
Commencement

1. (1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Limited Employees Service (First Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

(35)

2. In the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Ltd., Employees Service Regulations, 1988, in Regulation 21, for the existing sub-regulation (1) set out in column-I below, the sub-regulation as set out in column-II shall be substituted, namely:-

Amendment to the regulation 21

COLUMN-I

Existing sub-regulation (1)—

(1) An employee shall retire on attaining the age of 60 years.

Provided that an employee who attains the age of superannuation on any day other than the first day of any calendar month shall retire on the last day of that month.

COLUMN-II

Sub-regulation (1) as hereby substituted—

(1) An employee shall retire on attaining the age of 60 years.

Provided that an employee, who attains the age of superannuation on any day other than the first day of any calendar month shall retire on the last day of that month:

Provided further that the appointing Authority may, at any time, by giving three months notice or pay in lieu thereof, to any employee (whether temporary or permanent), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of fifty years of such employee may, by giving three months notice to the Appointing Authority voluntarily retire at any time after attaining the age of forty five years or after he has completed twenty years of service under the establishment of the Federation.

By order,

A. P. SINGH.

Sachiv

Sugar Industry and Cane Development

Department, and

Authorities

U.P. Co-operative Sugar Factories Federation

Limited, Lucknow

रु० एस० य० पी०—२०१०। १९ सा० (द्वाय) — (४७) — १९९०— ५०० (मक०)

## उत्तर प्रदेश शालन

चीनी उद्योग संघ गन्ना विकास अनुभाग-2

संख्या- ७७१ इस्टर्नौ/१६-२-८/४४

लखनऊ: दिनांक : २४ फरवरी, १९९५

## कार्यालय-शालन

उत्तर प्रदेश लहकारी तक्रिति नियमाला, १९६८ के नियम ३८९-के ताप्य पठित उत्तर प्रदेश सहकारी तक्रिति अधिनियम, १९६५ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- ११ तद १९६१ की पारा-१२२ की उप-धारा ।।। के अधीन गक्कित का प्रयोग करते हुए मी राज्यपाल छोटप दबारा जारी अधिकृत नियम, चीनी उद्योग संघ गन्ना विकास अभाग के दबारा आयुक्त संघ सचिव, चीनी उद्योग संघ गन्ना विकास अभाग के उत्तर प्रदेश लहकारी चीनी मिलों तथा लहकारी चीनी मिलों संघ के लिये प्राप्तिकारी संघटित क्रिया गया है तथा लहकारी चीनी मिलों और चीनी मिलों संघ के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रशालनिक नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी दृष्टि में पुनः उत्तर प्रदेश लहकारी लहकारिता अनुभाग। दबारा निर्गत अधिकृत नियम संख्या-४७५/१२सी-१-८७-७११३१-७६ दृष्टि ०, दिनांक ३१-३-१९८७ दबारा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिलों तथा पू०८०००० लोगों आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन ५०० लखनऊ के कर्मचारियों की भर्ती, उपलब्धियों और तेवा के जनरल्सों और श्लों जिसके अन्तर्गत अनुशालनिक नियंत्रण भी है, के तम्बांप में विनियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं।

उपरोक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत लहकारी चीनी मिलों तथा पू०८०००० लोगों आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन ५०० लखनऊ के कर्मचारियों की भर्ती तथा तम्बांप कार्यों के नियमित पू०८०००० लोगों आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन ५०० कर्मचारी तेवा नियमाला, १९८८ का नियमित किया गया है तथा इनका प्रकाशन राज्यीय गजट में दिनांक ६-१-१९८९ को किया गया है।  
इसके उपरांत उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी उद्योग अनुभाग-२ के नियम  
 अधिकृत संख्या- ६६७ दृष्टि ०/१८-६-७१-८८, दिनांक १५-३-१९९० तथा पुनः

उत्तर प्रदेश सरकार चीनी उदयोग अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिकृत तंत्रज्ञान तंत्र-  
3243 शतांशी ०/१८-२-७१-८८, दिनांक ९-७-९२ द्वारा इतिहास तंत्रोपन किये  
गये हैं।

उपरोक्त तंत्रज्ञान, १९३८ के साथ पठित द्वितीय तंत्रोपन १९९२  
के विनियम १२१। के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है :

१२-११। तंत्र के अधीन तम्बू "ह", "ख" और "ग" के पटों पर नियुक्तियाँ  
निम्न प्रकार से ही जारीगी -

।।। तीर्पा भर्ती द्वारा, या

।।। विभागीय परीक्षा या साधात्तार के माध्यम से या  
ऐतीजन्य सीति से जिसे प्रबन्ध फेहरेश तम्बू-कम्बू पर  
अवधारित करें, कर्मचारियों में से पटोन्नति द्वारा,

।।। प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर तेवारोजन द्वारा

।।। किसी अन्य स्रोत से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।

उपरोक्त विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये जाते  
हैं :-

।।। लहराती चीनी मिनों तथा यूर्फील्कोआण्डेटिव शुगर फैब्रीज  
फेहरेशन लिंग लखनऊ में प्रधान प्रबन्धकों के पटों पर तैनाती निम्न-

स्रोतों से ही जाय :

(क) सोध भर्ती द्वारा,

।।। यूर्फील्कोशुगर फैब्रीज फेहरेशन के कर्मियों द्वारा।

।।। प्रतिनियुक्ति द्वारा। प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु ३०प्र०  
सिविल सवित्रि । प्रशातकीय शाखा ।, पी.सी.एस.संवर्ग  
के अधिकारी, गन्ना विकास विभाग तथा राज्य सरकार के  
अन्य विभागों से भी अनुभव और योग्यता के आधार पर  
प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाय।

।।। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वर्तमान तंत्र यथावत  
रही जाय।

।।। अपोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह सम्पर्क-सम्पर्क पर  
आवश्यकता हो टैलों हुए तमीझा करने के पश्चात पी०सी०एस०

संवर्ग के मुख्य प्रबन्धकों की तंत्रों से जुड़ी कामों को लेकर

चूंकि लहराती चीनी मिनों तथा उनसे शीर्षता तंत्र यूर्फी  
को आजरेटिव शुगर फैब्रीज फेहरेशन में राज्य सरकार ही बहुत

श्रीपिंडी विनियोगिया हैं जिन्हें राज्य सरकार के  
टिकोंडों की रधा में तथा व्यापक जनहित/लोकहित में  
एवं आदेश पालित किये जाते हैं।

जो कि दृष्टि  
इंडीयान मित्तल  
प्रमुख तत्त्वजीवी उदयोग सं  
गीना विभाग/प्राधिकारी  
सहकारी चीनी मिले रख तथा ।

संख्या - ५७७ (१) राज्यसभा/१८-२१५ तददिनां।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को लूगार्थ सं  
आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, इंडीयान मिल, तथा, लखनऊ।
- 2- तत्त्वजीव, नियुक्ति विभाग, इंडीयान।
- 3- तमस्त सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक।
- 4- गन्ना आयुक्त/निवन्धक, सहकारी चीनी मिल, इंडीया,  
लखनऊ।

जाबा है,

जो कि दृष्टि  
इंडीयान मित्तल  
प्रमुख तत्त्वजीवी उदयोग सं  
गीना विभाग/प्राधिकारी  
सहकारी चीनी मिले रख तथा ।

उत्तर प्रदेश भस्त्राधारण गजट, 6 जनवरी, 1989

### ध्याय—तीन

#### भर्ती और नियुक्ति

11—इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पदों का सूचना पदों का सूचना  
कार्यकारी अधिकारी में विहित होगी। प्राधिकारी समय-समय पर संघ की सेवा में प्रत्येक समूह  
के पदों की संख्या घब्बारित करेगा।

12—(1) संघ के अधीन समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर नियुक्ति निम्न प्रकार से  
हो जायेगी—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ख) विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्रबन्ध  
निदेशक समय-समय पर घब्बारित करें, कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा;
- (ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा;
- (घ) किसी अन्य स्रोत से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।

(2) समूह "क" के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

13—(1) संघ के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकारीयों की भर्ती के लिये एक चयन  
समिति होगी।

(2) समूह "क", "ख" और "ग" के पदों पर अधिकारीयों के चयन के लिये समिति में निम्न-  
लिखित सदस्य होंगे—

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| (क) प्रबन्ध निदेशक—     | ध्यायक |
| (ख) प्राधिकारी द्वारा—  | सदस्य  |
| चाम.निर्दिष्ट दो धिरेपन |        |

(3) समूह "घ" के पदों के लिए अधिकारीयों का चयन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायगा  
जिसे प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

14—इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन इन्हें हुए संघ में पदों पर चयन के लिये  
प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर स्रोत और प्रक्रिया घब्बारित की जायगी। विनियम 13 के  
अधीन सम्भव रूप से गठित चयन समिति प्राधिकारी द्वारा घब्बारित स्रोत और प्रक्रिया  
के द्वारा अधिकारीयों का चयन करेगी और घब्बारित अधिकारीयों के नाम उनकी योग्यता अम में  
खड़कर एक नाम सूची (पैनल), बनायेगी और अपनी संस्तुतियों के साथ उसे नियुक्ति प्राधि-  
कारी को देगा। नियुक्ति प्राधिकारी सूची का अनुमोदन करेगा और उसे नोटिस बोर्ड पर  
संग्रहा देगा। इस रीति से तैयार की गई कोई नाम सूची (पैनल) अपने अनुमोदन के दिनों  
से पहले बढ़े के लिये मस्तिष्क में रखेगी।

15—इस विनियमावली के अधीन या अन्यथा उपबन्ध के शिवाय कर्मचारी की गेवा  
दस्ती दिन से प्रारम्भ हुई समझी जायगी, यदि वह प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताये गये स्थान और  
शरण-प्रदान-बन्ध में कार्य-मार प्रहरण करने के लिए स्पॉट करें और उस पद का कार्य-मार  
प्रहरण करें जिस पर उसकी नियुक्ति की गयी हो। अधिकारी द्वारा अपराह्न में कार्य-मार प्रहरण  
करने की स्थिति में उसकी सेवा अगले दिन से ग्राहक होगी।

प्रारम्भ के प्रारम्भिक चयन किये गये अधिकारीयों की ज्येष्ठता चयन समिति द्वारा घब्बारित योग्यता के  
के द्वारा परहोगी, और ऐद्वाका प्रारम्भ इस ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।

16—(1) प्रत्येक कर्मचारी आरम्भ में ऐसी घब्बिति के लिये परिवेश पर नियुक्ति किया ● तांत्रिका  
जायगा जैसी नियुक्ति प्राधिकारी उसके नियुक्ति-पद में विनिर्दिष्ट करें।

(2) परिवेश घब्बिति के दोरान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विसी कर्मचारी को विना  
किसी नोटिस के सेवा से अमिसुक्त किया जा सकता है।

(3) नियुक्ति-पद में विनिर्दिष्ट परिवेश घब्बिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-  
पथ पर बढ़ायी जा सकती है।

17—(1) किसी पद पर सीधी भर्ती की गया कोई कर्मचारी परिवेश घब्बिति के दोरान,  
किसी समय, नियुक्ति प्राधिकारी के शादेशों के अधीन सांप की जेवा से सेवा मुक्त किया जा  
सकता है।

परिवेश घब्बिति के दोरान सेवा-  
मुक्त करना